



Brihat

16 May 2025

02:26 PM

Begusarai

Model: Health-Report

Order No: 121575401


तिथि 16/05/2025 समय 14:26:00 वार शुक्रवार स्थान Begusarai चित्रपक्षीय अयनांश : 24:12:42
अक्षांश 25:25:00 उत्तर रेखांश 86:08:00 पूर्व मध्य रेखांश 82:30:00 पूर्व स्थानिक संस्कार 00:14:32 घंटे

पंचांग	अवकहड़ा चक्र
साम्पातिक काल : 06:17:51 घं	गण _____: राक्षस
वेलान्तर _____: 00:03:37 घं	योनि _____: श्वान
सूर्योदय _____: 05:00:11 घं	नाडी _____: आद्य
सूर्यास्त _____: 18:23:50 घं	वर्ण _____: क्षत्रिय
चैत्रादि संवत _____: 2082	वश्य _____: मानव
शक संवत _____: 1947	वर्ग _____: मूषक
मास _____: ज्येष्ठ	र्युजा _____: अन्त्य
पक्ष _____: कृष्ण	हंसक _____: अग्नि
तिथि _____: 4	जन्म नामाक्षर _____: भी-भीमा
नक्षत्र _____: मूल	पाया(रा.-न.) _____: लौह-ताम्र
योग _____: साध्य	होरा _____: चंद्र
करण _____: बव	चौघड़िया _____: रोग


विंशोत्तरी	योगिनी
केतु 0वर्ष 5मा 15दि	उल्का 0वर्ष 4मा 21दि
शुक्र	सिद्धा
31/10/2025	07/10/2025
31/10/2045	06/10/2032
शुक्र 01/03/2029	सिद्धा 16/02/2027
सूर्य 01/03/2030	संकटा 06/09/2028
चन्द्र 31/10/2031	मंगला 16/11/2028
मंगल 30/12/2032	पिंगला 07/04/2029
राहु 31/12/2035	धान्या 06/11/2029
गुरु 31/08/2038	भामरी 17/08/2030
शनि 31/10/2041	भद्रिका 07/08/2031
बुध 30/08/2044	उल्का 06/10/2032
केतु 31/10/2045	

ग्रह	व	अ	अंश	राशि	नक्षत्र	पद	स्वामी	अं.	स्थिति	षट्बल	चर	स्थिर	ग्रह तारा
लग्न			09:49:14	कन्या	उ०फाल्गुनी	4	सूर्य	शुक्र	---	0:00			
सूर्य			01:32:09	वृष	कृतिका	2	सूर्य	गुरु	शत्रु राशि	1.42	ज्ञाति	पितृ	विपत
चंद्र			12:27:36	धनु	मूल	4	केतु	बुध	सम राशि	1.41	मातृ	मातृ	जन्म
मंगल			18:45:59	कर्क	आश्लेषा	1	बुध	केतु	नीच राशि	1.28	आत्मा	भातृ	अतिमित्र
बुध			16:12:50	मेष	भरणी	1	शुक्र	सूर्य	सम राशि	0.92	भातृ	ज्ञाति	सम्पत
गुरु			00:21:18	मिथु	मृगशिरा	3	मंगल	बुध	शत्रु राशि	1.32	कलत्र	धन	प्रत्यारि
शुक्र			16:43:19	मीन	रेवती	1	बुध	बुध	उच्च राशि	1.50	अमात्य	कलत्र	अतिमित्र
शनि			05:04:48	मीन	उ०भाद्रपद	1	शनि	शनि	सम राशि	1.25	पुत्र	आयु	मित्र
राहु	व		01:07:07	मीन	पू०भाद्रपद	4	गुरु	मंगल	सम राशि	---	---	ज्ञान	वध
केतु	व		01:07:07	कन्या	उ०फाल्गुनी	2	सूर्य	राहु	शत्रु राशि	---	---	मोक्ष	विपत


लग्न-चलित




चन्द्र कुंडली




नवमांश कुंडली



सर्वाष्टकवर्ग



दशमांश कुंडली



स्वास्थ्य, व्यक्तित्व एवं प्रकृति

आपके जन्म समय में लग्न में कन्या राशि उदित हो रही थी जिसका स्वामी बुध है। सामान्यतया कन्या लग्न में उत्पन्न जातक अध्ययनशील प्रवृत्ति के होते हैं। तथा विभिन्न विषयों के ज्ञानार्जन में रुचिशील रहते हैं। अतः समाज में एक विद्वान के रूप में इनकी प्रतिष्ठा रहती है। सदगुणों से ये युक्त रहते हैं परन्तु स्त्रियों के प्रति इनके मन में विशेष आकर्षण रहता है। भाग्य इनका प्रबल रहता है एवं सौभाग्य से इनके सभी सांसारिक महत्व के कार्य सिद्ध होते हैं फलतः इच्छित धनैश्वर्य एवं भौतिक सुखों का उपभोग करने में समर्थ रहते हैं। ये बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं तथा अपनी तीव्र बुद्धि के द्वारा कठिन से कठिन समस्या का समाधान करने में समर्थ रहते हैं। अतः सरकारी कार्यों या प्रशासनिक क्षेत्रों में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है इनमें भावुकता की न्यूनता रहती है तथा सभी महत्वपूर्ण कार्य ये बुद्धिबल से सम्पन्न करते हैं।

अतः इसके प्रभाव से आपका व्यक्तित्व आकर्षक होगा तथा अन्य जनों को प्रभावित करने में समर्थ होंगे। अध्ययन के प्रति आप रुचिशील रहेंगे तथा लेखन मनोविज्ञान या आलोचना के क्षेत्र में सफलता अर्जित करेंगे। आपकी बुद्धि भी तीव्र होगी तथा विषम समस्याओं को समझने तथा समाधान करने में समर्थ होंगे। अतः सरकारी या प्रशासनिक क्षेत्रों में आप कार्यरत हो सकते हैं।

आप एक गुणवान व्यक्ति होंगे तथा समाज में सम्मानित एवं प्रतिष्ठित रहेंगे। स्वभाव से आप शांत एवं उदार होंगे तथा सभी कार्य बुद्धिमतापूर्ण ढंग से सम्पन्न होंगे। जीवन में धनैश्वर्य एवं सुख संसाधनों का उपयोग करते हुए सुख एवं शांति की अनुभूति करेंगे।

लग्न में केतु की स्थिति के प्रभाव से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा परन्तु यदा कदा मानसिक उद्विग्नता से आपको परेशानी की अनुभूति हो सकती है। आपका दाम्पत्य जीवन सामान्यतया अच्छा रहेगा तथा सुख पूर्वक समय व्यतीत करेंगे। बचपन में आपका समय संघर्षपूर्ण रहेगा परन्तु युवावस्था के बाद आप सुख एवं समृद्धि प्राप्त करने में समर्थ होंगे। संतति से आप युक्त रहेंगे तथा उनसे आपको सुख एवं सहयोग प्राप्त होता रहेगा। आप एक पराक्रमी पुरुष होंगे तथा स्वपराक्रम परिश्रम एवं योग्यता से सांसारिक कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे। साथ ही कार्यक्षेत्र में भी उन्नति एवं प्रतिष्ठा अर्जित करेंगे।

आप में तेजस्विता का भाव भी विद्यमान रहेगा। अतः यदा कदा आप उग्रता के भाव का भी प्रदर्शन करेंगे। अन्य सामाजिक जनों के प्रति आपके मन में उदारता का भाव होगा तथा समयानुसार परोपकार सम्बन्धी कार्यों में भी इच्छा रहेगी। कार्यक्षेत्र में आप प्रभावशाली व्यक्ति होंगे तथा सभी लोग आपको यथोचित आदर प्रदान करेंगे।


धर्म के प्रति आपकी सामान्य श्रद्धा रहेगी तथा अल्प मात्रा में ही धार्मिक कार्यकलापों को सम्पन्न करेंगे। मित्र वर्ग में आपकी लोकप्रियता रहेगी तथा उनसे आपको अनुकूल लाभ एवं सहयोग मिलता रहेगा। इसके साथ ही आप अपने पराक्रम तेजस्विता, बुद्धिमता तथा योग्यता से इच्छित सम्मान प्राप्त करेंगे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करेंगे।

रत्न चयन

रत्न जीवन में शुभत्व की वृद्धि के लिए धारण किए जाते हैं। वैज्ञानिक रूप से, रत्न अपने ग्रह की राशियों को पूर्णमात्रा में मानव शरीर में प्रवाहित कर ग्रह प्रभाव की वृद्धि करते हैं। यही कारण है कि रत्न केवल शुभ ग्रहों का ही धारण किया जाता है। ग्रह शुभ माना जाता है यदि यह लग्न, त्रिकोण या केन्द्र में स्थापित हो या स्वामी हो। यह अशुभ होता है यदि यह त्रिक भाव से संबंधित हो। मित्रों की युति या दृष्टि भी इसकी शुभता बढ़ाती है। बाधक भाव का स्वामित्व शुभता कम कर देता है। चर लग्नों में एकादश, स्थिर में नवम व द्विस्वभाव में सप्तम भाव की बाधक संज्ञा है। उपरोक्त तथ्य रत्न चयन हेतु ग्रह की शुभता दर्शाते हैं।

नीचे जन्मकुण्डली में ग्रहों की शुभता को सारणी व ग्राफ में दर्शित किया गया है। साथ ही कौन सा ग्रह किस क्षेत्र में कार्य सिद्ध कर सकता है दिया गया है। विभिन्न दशाओं में विभिन्न रत्नों की शुभता भी नीचे तालिका में दी गई है। जिस ग्रह को 75 प्रतिशत शुभता प्राप्त है उसके रत्न हमें सर्वदा बिना दशा विचार के धारण करने चाहिए। जिन्हें 50-75 प्रतिशत शुभता प्राप्त है उन्हें कार्य क्षेत्र अनुसार व अनुकूल दशा में धारण करना चाहिए। जो रत्न केवल 25-50 प्रतिशत शुभता लिए हैं उनके रत्न केवल उनकी या उनके मित्रों की दशा में धारण करने चाहिए। अन्ततः जिन्हें 25 प्रतिशत से भी कम शुभता प्राप्त है वे ग्रह अपने लिए अशुभ ही समझें और उनके रत्नों को पहनने से बचना चाहिए।

रत्न	ग्रह	शुभता	क्षेत्र
हीरा	शुक्र	95%	दम्पति, भाग्योदय, धन
पन्ना	बुध	78%	दुर्घटना से बचाव, व्यावसायिक उन्नति, स्वास्थ्य
मोती	चंद्र	72%	सुख, धनार्जन
नीलम	शनि	69%	दम्पति, सन्तति सुख, शत्रु व रोग मुक्ति
गोमेद	राहु	64%	दम्पति, व्यावसायिक उन्नति
पुखराज	गुरु	55%	व्यावसायिक उन्नति, सुख, दम्पति
लहसुनिया	केतु	44%	रोग, दुर्घटना
माणिक्य	सूर्य	28%	नेष्ट भाग्य, व्यय
मंगा	मंगल	0%	हानि, दुर्घटना, पराक्रम हानि



दशानुसार रत्न विचार

दशा	समाप्ति	माणिक्य	मोती	मंगा	पन्ना	पुखराज	हीरा	नीलम	गोमेद	लहसुनिया
केतु	31/10/2025	3%	59%	0%	78%	55%	100%	56%	52%	59%
शुक्र	31/10/2045	3%	59%	0%	84%	55%	100%	75%	70%	53%
सूर्य	31/10/2051	52%	78%	0%	78%	61%	83%	56%	52%	19%
चंद्र	31/10/2061	41%	84%	0%	84%	55%	95%	69%	52%	19%
मंगल	30/10/2068	41%	78%	6%	66%	61%	95%	69%	52%	53%
राहु	31/10/2086	3%	59%	0%	78%	55%	100%	75%	77%	19%
गुरु	01/11/2102	41%	78%	0%	66%	67%	83%	69%	64%	44%
शनि	01/11/2121	3%	59%	0%	84%	55%	100%	81%	70%	19%
बुध	01/11/2138	41%	59%	0%	91%	55%	100%	69%	64%	44%

लग्न फल

आपका जन्म उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में कन्या राशि के लग्नोदय काल हुआ था। ज्योतिषीय स्वरूप से आपके जन्मलग्न के समय मेदिनीय क्षितिज पर मीन राशि का नवमांश एवं कन्या राशि का द्रष्टाकाण भी उदित था। इस समन्वित ज्योतिषीय प्रभाव से यह संकेत प्राप्त हो रहा है कि आप मात्र धन सम्पत्ति प्राप्त करने के लिए अभिलाषी नहीं हैं। बल्कि आपकी अभिरुचि धार्मिक भी है। इस अध्यात्मिक झुकाव के परिणाम स्वरूप आप अनेक तीर्थ स्थानों का परिदर्शन करेंगे।

आप निश्चित रूप से कठिन श्रम के प्रति समर्पित प्राणी हैं। फलस्वरूप आप धनी सुखी और सम्पत्तिवान प्राणी होंगे। इस समर्पण की भावना से आप बहुत कुछ कर गुजारने हेतु प्रस्तुत हैं। जैसे जो आपको आवश्यकता पड़ने पर आपकी मदद किया है आप उनको भी अपने मिथ्याचारी भावना से धोखा दे सकते हैं।

आप प्रेरित होकर सही दिशा में चलते रहेंगे। ग्रह के योग यह प्रदर्शित करते हैं कि आप को अपने जीवन के उत्थान पतन का अच्छा अनुभव प्राप्त होगा। लेकिन आप पूर्व समय की अकर्मण्यता को त्याग कर अपने समय का सदुपयोग सामान्य ज्ञान के आधार पर आपने स्पन्दित आदतों को त्याग सकते हैं। आप अपनी योजना एवं कार्यकलाप के सम्बन्ध में सावधानी पूर्वक कार्यारम्भ के पूर्व निर्णय लेकर पुनः कार्यारम्भ करे तो श्रेयष्कर होगा। दूसरी बात यह है कि आप कन्या राशीय स्वभाव के अनुसार कार्य प्रारम्भ करते समय ही निर्णय लेते हैं और कार्य के पीछे पड़ जाते हैं। आपके उद्देश्य के अनुसार प्रथम रीति के अनुसार ही कार्य करना उत्तम विद्य है।

आप बुद्धिमान स्तर के प्राणी हैं। अतएव आप दूसरों की गलती को उजागर करते हैं। यह बिन्दु दूसरों के लिए क्रोध उत्पन्न कराने वाला कष्टप्रद होता है। आप अपने मित्रों के साथ भी सौदेबाजी करते हैं। इस परिस्थिति में कुछ लोग आपके शत्रु होकर आपकी व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर आपके विरुद्ध न्यायालय में भी कोई बयान दे सकते हैं। आप इस प्रकार की आकस्मिक आपदा में धैर्य धारण करने की शिक्षा ग्रहण करें।

इस प्रकार अपनी प्रवृत्ति में बदलाव लाना आपके लिए कठिन साध्य है। आपके लिए अच्छा कार्य व्यवसायों में औडिट, परीक्षक, अथवा आय से सम्बन्धित ऑफिस कार्य करना उपयुक्त है। आप उत्तम व्यवसाय हेतु लेखा निरीक्षक का कार्य कर सकते हैं क्योंकि आप में वाणिज्य-व्यवसाय करने की प्रतिभा है।

यदा-कदा आप अपने धन का निवेश व्यावसायिकी सट्टेबाजी या शेयर प्राप्ति में व्यय कर सकते हैं। आपके लिए धीरे-धीरे चलना उत्तम है बल्कि आपके के द्वारा किया गया धन निवेश की वापसी यदा कदा बहुतायत अंश में होगा।

आप अपने घर परिवार के लिए बहुत भाग्यशाली हैं। आप की प्यारी पत्नी भगवान की देन प्रमाणित होगी। उनके द्वारा आपको अच्छी सन्तान की प्राप्ति होगी जो अपने जीवन में

अच्छी तरह सुव्यवस्थित हो जाएंगे। इसलिए आप अपनी वासनात्मक प्रवृत्ति के प्रति बदलाव लाना अच्छा होगा। ताकि आप अन्य के साथ शारीरिक सम्बंध स्थापित न करे। अन्यथा आप इस प्रकार कामुक प्राणियों में विख्यात हो जाएंगे।

आप निःसंदेह दीर्घायु होकर बहुत दिनों तक उत्तम स्वास्थ्य का आनन्द प्राप्त करेंगे। परन्तु आप अधिक कामुक हो जाने पर रोग के प्रभाव से आपका शारीरिक ह्रास हो जाएगा तथा आप पीठ की हड्डियों के कष्ट तथा रक्तचाप के रोग से अक्रान्त हो सकते हैं। यदि आप प्रारम्भिक अवस्था से उत्तम अंगीकृत करें। अपने आहार व्यवहार को नियंत्रित रखें तो शाकाहार ग्रहण करें एवं मद्यपाण का त्याग कर दें तो आपका स्वास्थ्य उत्तम तथा बहुत अच्छा रहेगा।

आपका भाग्यशाली अंक 2, 3, 5, 6 एवं 7 अंक है तथा आपके लिए उत्तम है।

आपके जीवन में रंग प्रदर्शन का बड़ा भाड़ी महत्त्व है। आपके लिए उत्तम रंग सफेद, सुआपंख्री, पीला एवं हरा रंग अनुकूल एवं फलदायी है। आपको रंग लाल, नीला एवं काले रंग का परित्याग कर देना चाहिए क्योंकि ये रंग आपके लिए प्रतिकूल हैं।

आपके लिए साप्ताहिक वारों में भाग्यशाली दिन बुधवार तथा शुक्रवार है। परन्तु आपको रविवार, गुरुवार, मंगलवार एवं सोमवार के दिनों का परित्याग करना चाहिए क्योंकि ये चारों दिन आपके लिए अनुकूल नहीं है। शनिवार आप के लिए मध्य फलदायक है।

रुद्राक्ष

रुद्राक्ष को शिव का अश्रु कहा जाता है। रुद्राक्ष दो शब्दों के मेल से बना है पहला रुद्र का अर्थ होता है भगवान शिव और दूसरा अक्ष इसका अर्थ होता है आंसू। माना जाता है की रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई है। रुद्राक्ष भगवान शिव के नेत्रों से प्रकट हुई वह मोती स्वरूप बूँदें हैं जिसे ग्रहण करके समस्त प्रकृति में आलौकिक शक्ति प्रवाहित हुई तथा मानव के हृदय में पहुँचकर उसे जागृत करने में सहायक हो सकी।

रुद्राक्ष की भारतीय ज्योतिष में भी काफी उपयोगिता है। ग्रहों के दुष्प्रभाव को नष्ट करने में रुद्राक्ष का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है, जो अपने आप में एक अचूक उपाय है। गम्भीर रोगों में यदि जन्मपत्री के अनुसार रुद्राक्ष का उपयोग किया जाये तो आश्चर्यचकित परिणाम देखने को मिलते हैं। रुद्राक्ष की शक्ति व सामर्थ्य उसके धारीदार मुखों पर निर्भर होती है। रुद्राक्ष सिद्धिदायक, पापनाशक, पुण्यवर्धक, रोगनाशक, तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है।

एक मुखी से लेकर चौदह मुखी तक रुद्राक्ष विशेष रूप से पाए जाते हैं, उनकी अलौकिक शक्ति और क्षमता अलग-अलग मुख रूप में दर्शित होती है। रुद्राक्ष धारण करने से जहाँ आपको ग्रहों से लाभ प्राप्त होगा वहीं आप शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे। रुद्राक्ष का स्पर्श, दर्शन, उस पर जप करने से, उस की माला को धारण करने से समस्त पापों का और विघ्नों का नाश होता है ऐसा महादेव का वरदान है, परन्तु धारण की उचित विधि और भावना शुद्ध होनी चाहिए।

रुद्राक्ष दाने पर उभरी हुई धारियों के आधार पर रुद्राक्ष के मुख निर्धारित किये जाते हैं। रुद्राक्ष के बीचों-बीच एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक रेखा होती है जिसे मुख कहा जाता है। रुद्राक्ष में यह रेखाएं या मुख एक से 14 मुखी तक होते हैं और कभी-कभी 15 से 21 मुखी तक के रुद्राक्ष भी देखे गए हैं। आधी या टूटी हुई लाईन को मुख नहीं माना जाता है। जितनी लाईनें पूरी तरह स्पष्ट हों उतने ही मुख माने जाते हैं।

पुराणों में प्रत्येक रुद्राक्ष का अलग-अलग महत्व और उपयोगिता का उल्लेख किया गया है -

एक मुखी - सूर्य ग्रह - स्वास्थ्य, सफलता, मान-सम्मान, आत्म - विश्वास, आध्यात्म, प्रसन्नता, अनायास धनप्राप्ति, रोगमुक्ति तथा व्यक्तित्व में निखार और शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराता है।

दो मुखी - चंद्र ग्रह- वैवाहिक सुख, मानसिक शान्ति, सौभाग्य वृद्धि, एकाग्रता, आध्यात्मिक उन्नति, पारिवारिक सौहार्द, व्यापार में सफलता और स्त्रियों के लिए इसे सबसे उपयुक्त माना गया है।

तीन मुखी - मंगल ग्रह- शत्रु शमन और रक्त सम्बन्धी विकार को दूर करने में सहायक होता है।

चार मुखी - बुध ग्रह- शिक्षा, ज्ञान, बुद्धि - विवेक, और कामशक्ति में वृद्धि प्राप्त कराता है।

पांच मुखी - गुरु ग्रह- शारीरिक आरोग्यता, अध्यात्म उन्नति, मानसिक शांति और प्रसन्नता के लिए भी इसका उपयोग किया होता है।

छः मुखी - शुक्र ग्रह - प्रेम सम्बन्ध, आकर्षण, स्मरण शक्ति में वृद्धि, तीव्र बुद्धि, कार्यों में पूर्णता और व्यापार में आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त कराता है।

सात मुखी - शनि ग्रह- शनि दोष निवारण, धन-संपत्ति, कीर्ति, विजय प्राप्ति, और कार्य व्यापार आदि में बढ़ेतरा कराने वाला है।

आठ मुखी - राहू ग्रह- राहु ग्रह से सम्बंधित दोषों की शान्ति, ज्ञानप्राप्ति, चित्त में एकाग्रता, मुकदमे में विजय, दुर्घटनाओं तथा प्रबल शत्रुओं से रक्षा, व्यापार में सफलता और उन्नतिकारक है।

नौ मुखी - केतू ग्रह- केतु ग्रह से सम्बंधित दोषों की शान्ति, सुख-शांति, व्यापार वृद्धि, धारक की अकालमृत्यु नहीं होती तथा आकस्मिक दुर्घटना का भी भय नहीं रहता।

10 मुखी - भगवान महावीर- कार्य क्षेत्र में प्रगति, स्थिरता व वृद्धि, सम्मान, कीर्ति, विभूति, धन प्राप्ति, लौकिक-पारलौकिक कामनाएँ पूर्ण होती हैं।

11 मुखी - इंद्र ग्रह- आर्थिक लाभ व समृद्धिशाली जीवन, किसी विषय का अभाव नहीं रहता तथा सभी संकट और कष्ट दूर हो जाते हैं।

12 मुखी - भगवान विष्णु ग्रह- विदेश यात्रा, नेतृत्व शक्ति प्राप्ति, शक्तिशाली, तेजस्वी बनाता है। ब्रह्मचर्य रक्षा, चेहरे का तेज और ओज बना रहता है। शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा मिट जाती है।

13 मुखी - इंद्र ग्रह- सर्वजन आकर्षण व मनोकामना प्राप्ति, यश-कीर्ति, मान-प्रतिष्ठा व कामदेव का प्रतीक है। उपरी बाधा और नजर दोष से बचाव के लिए विशेष उपयोगी है।

14 मुखी - शनि ग्रह- आध्यात्मिक उन्नति, शक्ति, धन प्राप्ति व कष्टनिवारक हैं। शनि की साढ़ेसाती या ढैया में विशेष कष्टनिवारक है।

आपकी कुंडली और रुद्राक्ष

आपकी कुंडली कन्या लग्न की है। कन्या लग्न पर बुध का प्रभाव होने से आप अत्यंत बुद्धिमान होते हैं। आपका व्यक्तित्व ऐसा होता है कि कोई भी सहजता से आपकी ओर आकर्षित हो जाता है। आपका मस्तिष्क अत्यंत रचनात्मक होता है। पृथ्वी तत्त्व होने से जिस प्रकार पृथ्वी सभी को धारण करती है उसी प्रकार आपके अन्दर भी सहनशीलता कूट-कूट कर भरी होती है। वायु प्रकृति होने से आप स्वयं को हर परिस्थिति में ढाल लेते हैं। सभी को माफ करने का स्वभाव, विपरीत परिस्थितियों में धैर्य रखना एवं समस्याओं का समाधान निकालना की क्षमता आपको विशिष्ट व्यक्तित्व बनाता है। लग्नेश बुध के कारण भाषा पर अच्छी पकड़ एवं वाणी की कुशलता तथा किसी भी बात का तर्कपूर्ण तथ्य आप चाहते हैं।

कुंडली का 6, 8 व 12 वां भाव त्रिक भाव होने के कारण विशेष अशुभता लिए होते हैं। आपकी कुंडली में पंचमेश व षष्टेश शनि है, अष्टमेश व तृतीयेश मंगल तथा द्वादशेश सूर्य हैं। इन भावों की अशुभता आपके जीवन में रोग, ऋण, शत्रु, आयु, बाधाएं, शोक, स्वास्थ्य हानि, अस्पताल, कोर्ट-कचहरी, जेल, व्यय और हानियों का विश्लेषण किया जाता है। त्रिक भाव के स्वामी जिस भाव में जाते हैं, उसके शुभ फलों का कुछ न कुछ नाश अवश्य करते हैं। जिसके फलस्वरूप आपको मानसिक, सामाजिक, आर्थिक या पारिवारिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। 6, 8 व 12 भावों में से 8 वां भाव सबसे अधिक दुष्ट/अशुभ होता है।

आपकी कुंडली में पंचमेश व षष्टेश शनि है, पंचमेश- षष्टेश शनि आपको विद्या, बुद्धि, विवेक, वाणी, संतान, भय, ऋण, रोग, पाप कर्म, संघर्ष, कष्ट, परिश्रम, धैर्य, मामा व ननिहाल पक्ष के लिए कष्टकारी सिद्ध हो सकता है।

अष्टमेश व तृतीयेश मंगल आपके पराक्रम, पुरुषार्थ में कमी करता है, साथ ही बाहुबल, भाई-बहन के सुखों में कमी, अस्पताल, पुलिस-कोर्ट कचहरी के मामले परेशानियों का कारण बन सकते हैं।

द्वादशेश सूर्य, द्वादश भाव का स्वामी सूर्य नेत्र रोग, व्यय, हानि, सरकारी दंड, कारागार, सम्बन्ध विच्छेद का कारक बन सकता है।

अष्टम भाव आयु, पुरातत्व और अन्वेषण का भाव है। आपकी यात्राओं में विघ्न बाधाएं दे सकता है। अष्टम भाव से बुध धन भाव को दृष्ट करता है। इससे धन संग्रह में कठिनाइयाँ आती हैं। बुध की यह स्थिति आपके छोटे भाई बहन को पिताधिक्य, तेज बुखार और दुर्बल देह का कारण बन सकती है। बुध की स्थिति अष्टम भाव में आपको बुद्धिबल से धन संग्रह की योग्यता दे रही है।

इन सभी के फलों में शुभता प्राप्त करने के लिए आपको 1, 3, 4, 7 मुखी रुद्राक्षों का कवच धारण करना चाहिए। यह कवच सफेद धागे में डालकर सोमवार को गंगाजल से शुद्ध कर ॐ नम शिवाय मंत्र के 108 बार जप कर धारण करना चाहिए। तदुपरांत शिवजी को कच्चा दूध चढ़ाए। क्षमतानुसार दान करे। इस प्रकार आपके जीवन में आने वाले कष्टों से छुटकारा मिलेगा एवं विशेष कष्टों में न्यूनता आएगी। कुंडली के सभी ग्रहों को शुभता प्रदान करने के लिए आप शिव कृपा रुद्राक्ष माला जो एक से चौदह मुखी रुद्राक्ष से निर्मित होती है, भी धारण कर सकते हैं। एक से चौदह मुखी रुद्राक्ष माला अद्भुत व चमत्कारी फल प्रदान करती है।

उपरोक्त कवच बिना दशा, गोचर विचार के आपको जीवन भर धारण करना चाहिए। क्योंकि यह कवच जन्म लग्न एवं उसमें स्थित ग्रहों के अवगुणों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है।

स्वास्थ्य - 2026

स्वास्थ्य की दृष्टि से यह वर्ष सामान्य रहेगा। मानसिक रूप से आप सन्तुष्ट नहीं रहेंगे। वर्ष के पूर्वार्द्ध में लग्न स्थान पर शनि के दृष्टि प्रभाव से मौसमजनित बीमारियों से परेशानी हो सकती है। आलस्य, मानसिक चिंता इत्यादि छोटी-मोटी परेशानियां होती रहेंगी परन्तु गुरु के गोचरोपरान्त सब कुछ अनुकूल हो जाएगा।

02 जून के बाद गुरु का गोचर शुभ स्थान में होने से आपके स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हो जाएगा। आप अपने स्वास्थ्य को अनुकूल रखने के लिए शुद्ध एवं शाकाहारी भोजन ही करेंगे। संतुलित आहार के साथ साथ नियमित व्यायाम भी करते रहेंगे। 31 अक्टूबर के बाद आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी।

जनवरी 2026 के लिए फलादेश

इस माह की ग्रह स्थिति आपके लिए अनुकूल रहेगी। अतः इस माह आप किसी भी प्रकार की गंभीर बीमारियों से मुक्त रहेंगे। यदि आपको कोई पुरानी बीमारी जैसे- जुकाम, खांसी और दमा रोग आदि अपने प्रभाव में ले सकती हैं। तथा आपके पाचन अंग सरलता से अव्यवस्थित हो सकते हैं। अन्य लोगों को इस माह काफी राहत का अनुभव होगा। स्वास्थ्य सुख बनाए रखने के लिए आप सामान्य व्यायाम क्रियाएं कर सकते हैं। इस माह की ग्रह स्थिति आपको स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही की कारण उत्पन्न रोगों से बचाने के लिए अनुकूल नहीं हैं। हमेशा के लिए स्वस्थ बने रहने के लिए स्वास्थ्य सावधानी बनाए रखें। इस माह आप स्वास्थ्य सावधानी के रूप में सामान्य व्यायाम कर सकते हैं। इससे आप पूरे माह स्वस्थ बने रहने की आशा कर सकते हैं।

फरवरी 2026 के लिए फलादेश

इस माह के दौरान आपका मन और शरीर काफी स्वस्थ और मजबूत रहेंगे। स्वयं की स्वस्थता हेतु आपको अपने छोटे दुःख की भी तत्काल चिकित्सा करानी होगी। दुःख के आरम्भ में ही देखभाल करने से रोग बड़ा नहीं होगा और उसका समय पर समाधान हो जाएगा। समय-समय पर जांच करते रहने से गंभीर बीमारी की संभावना समाप्त होगी। अचानक से होने वाले रोगों पर भी यह उपाय नियंत्रण बनाए रखेगा। परन्तु इस माह नेत्र संक्रमण की संभावना से पूरी तरह से इंकार नहीं किया जा सकता है। सामान्य देखभाल करने से भी आपका स्वास्थ्य सुख बना रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह एक अच्छा माह रहेगा। स्वास्थ्य उपचार से संबंधित चिंता का अन्य कोई कारण नहीं बन रहा है।

मार्च 2026 के लिए फलादेश

अपने स्वास्थ्य के संदर्भ में आपको इस माह बहुत अधिक सावधान रहना होगा। जिन व्यक्तियों को पाचन तंत्र, वायु रोग, गठिया तथा जीर्ण रोग जैसी पुरानी बीमारियां हैं। उन्हें

विशेष रूप से सतर्क रहना होगा। यही कारण है कि आपको अत्यधिक सावधानी बरतनी होगी और उचित देखभाल रखते हुए आवश्यक पड़ने पर उचित उपचार भी लेते रहें। इनमें में से किसी भी प्रकार की देरी गंभीर प्रकार की समस्या उत्पन्न कर सकती है। ग्रह नक्षत्र का पूरा सहयोग प्राप्त न होने के कारण ऐसी समस्याएं सामने आ सकती हैं। इसके अलावा इस माह आपका अत्यधिक भोजन करना भी परेशानी खड़ी कर सकता है। सावधानी के साथ संतुलित जीवन शैली का पालन करते हुए, अपने स्वास्थ्य सुख को बनाए रख सकते हैं।

अप्रैल 2026 के लिए फलादेश

इस माह में बन रहे ग्रह योगों की स्थिति आपके लिये बहुत उत्तम नहीं बनी हुई हैं। विशेष रूप से यदि आप अल्सर, पीठ दर्द एवं जीर्ण रोग जैसी पुरानी अनियमितताओं से ग्रस्त हैं तो आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में सावधान रहने की जरूरत है। अपने स्वास्थ्य की सामान्य देखभाल के लिए व्यायाम कर सकते हैं। अथवा आवश्यकता पड़ने पर शीघ्र चिकित्सा उपचार लेनी होगी। आप अचानक से बुखार रोग से ग्रसित हो सकते हैं। अथवा आप शीघ्र क्रोध में आ सकते हैं। समय पर इन रोगों से रक्षा करने से आप गंभीर बीमारियों से मुक्त रह सकते हैं। ग्रहों की प्रतिकूल स्थिति होने के बावजूद आप बचाव कर गंभीर संकटों से बच सकते हैं।

मई 2026 के लिए फलादेश

इस माह के सितारों की स्थिति आपके स्वास्थ्य के पक्ष से बहुत बेहतर नहीं बनी हुई हैं। माह आरम्भ में आपको अपने पुराने रोगों के लिए सतर्क रहना चाहिए। अन्यथा आपको स्वास्थ्य कमियों के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जुकाम, खांसी और जीर्ण प्रकार के रोगों का प्रभाव होने पर विशेष सावधानी रखनी होगी। इसके अलावा, बवासीर से पीड़ित लोगों को भी सावधानी बरतनी चाहिए। इस माह सितारों की स्थिति आपके अनुकूल न होने के बावजूद आप एक नियंत्रित जीवन शैली का यापन कर अपने रोगों पर नियंत्रण बनाए रख सकते हैं तथा स्वास्थ्य सुख को भी बनाए रख सकते हैं।

जून 2026 के लिए फलादेश

इस माह के सितारों आपकी स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान नहीं कर रहे हैं इसलिए इस माह की ग्रह स्थिति आपके अनुकूल नहीं बन रही हैं। अपने स्वास्थ्य के प्रति आपको सावधान रहना होगा। जीर्ण रोगों का खतरा बन रहा है। अतः आपको इस माह विशेष सावधानी बरतनी होगी। माह अवधि में एक या एक से अधिक गंभीर प्रकृति की समस्याएं उत्पन्न होने की संभावना बन रही है। अचानक से बुखार या सूजन आदि हो सकती हैं। इस प्रकार के रोगों का शीघ्र उपचार करना हितकारी रहेगा। इस प्रकार की अनियमितताओं को अनदेखा करने पर गंभीर रोग सामने आ सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी दुर्घटना या हिंसक चोट की संभावना बन रही है। अपना ख्याल रखें, सावधानी रखने का समय है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति प्रतिकूल बनी हुई है।

जुलाई 2026 के लिए फलादेश

आपको यह सुनिश्चित करना है कि आप अपनी ओर से किसी प्रकार की लापरवाही न करें, स्वास्थ्य अनुकूलता के लिए आपकी तत्परता आवश्यक है। ग्रह एवं नक्षत्रों की शुभता आपके सभी स्वास्थ्य विकारों का समाधान कर रही हैं। आंशिक रूप से पाचन शिकायतें, गठिया, वायु रोग एवं पुराने रोगों का न उभरना आपको राहत देगा। परन्तु इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि आप अपने स्वास्थ्य विकारों को अनदेखा करने लगें। आपको यह सुनिश्चित करना है कि आप सामान्य सावधानी रखें और गंभीर विषयों का ध्यान रखना चाहिए। अपने स्वास्थ्य की किसी भी छोटी सी शिकायत को भी आपको नजर अंदाज नहीं करना है। इससे यह माह आपके लिए शुभ होकर अनुकूल बना रहेगा।

अगस्त 2026 के लिए फलादेश

इस माह जहां तक आपके स्वास्थ्य का सवाल है, इस माह आपको अपने शुभ भाग्य के लिए आभारी रहना चाहिए। इस माह के ग्रह नक्षत्र यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि इस अवधि में आपको किसी गंभीर स्वास्थ्य संकट के परेशान न करने की संभावना बन रही है। अत्यधिक परिश्रम करना कुछ खतरनाक हो सकता है। आपको इससे बचना होगा। आपको अपने मानसिक और भौतिक संसाधनों पर किसी भी प्रकार का अनुचित दबाव नहीं डालना चाहिए। इससे बचाव करने के लिए आप को अपने कार्यों का एक समय सारणी निर्धारित करनी चाहिए। यदि आप इस विषय में किसी प्रकार की एहतियात नहीं लेते हैं तो आप गंभीर प्रकृति की समस्याओं में घिर सकते हैं। थकावट और तंत्रिका विकारों को बिल्कुल अनदेखा न करें। अन्यथा छोटे सा रोग देखभाल न करने पर गंभीर मुसीबत का आकार ले सकता है। अन्य विषयों के लिए इस माह आप अपने अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लें।

सितम्बर 2026 के लिए फलादेश

इस माह के ग्रह, सितारों की स्थिति आपकी स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए शुभ नहीं बनी हुई है इसलिए इस माह आपको स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखने के लिए अतिरिक्त देखभाल करनी होगी। यदि आप किसी भी प्रकार की पुरानी अनिमितताओं से ग्रस्त हैं तो आपको इनकी शिकायतें हो सकती हैं। इसलिए आपको इस अवधि में उचित देखभाल और व्यायाम करना आपके लिए लाभकारी रहेगी। इस स्थिति में आपको जुकाम, खांसी जैसी वेदनाओं में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं होनी चाहिए। दवा इत्यादि भी समय पर बिना किसी चूक के लेते रहें। इससे स्वास्थ्य सुख बिना हानि के प्राप्त किया जा सकता है। यदि परिस्थितियों पर आप तत्काल ध्यान रखने में विफल होते हैं तो बहुत तेजी के साथ हालात बिगड़ने की संभावना बन रही है आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और ज्वर आदि का समय पर उपचार करायें। इससे आप किसी भी गंभीर समस्या से बच सकते हैं।

अक्टूबर 2026 के लिए फलादेश

इस माह ग्रहों की स्थिति, योग आपके स्वास्थ्य सुख के लिए अनुकूल बन रही हैं। इससे पूर्व किसी भी प्रकार की पुरानी अनियमितताओं जैसे बुखार, शीघ्र क्रोध आना इत्यादि में इस माह में कमी आएगी। फिर भी आप अचानक से होने वाले रोगों के प्रति सावधान रहें। कोई गंभीर बीमारी होने की संभावना नहीं बन रही है। स्वास्थ्य चिंताओं में कमी करने के लिए आप आवश्यकता पड़ने पर बिना देरी किए समय पर ईलाज करायें। ग्रह स्थिति स्वास्थ्य के पक्ष से शुभ होने के कारण इस अवधि में सरल सामान्य देखभाल से भी आपको बहुत लाभ पहुंच सकता है। विशेष रूप से इस माह आपको सिर से जुड़े विभिन्न रोग होने की आंशिक संभावनाएं बन रही हैं। बालों में तेजी से गिरावट की स्थिति बन सकती है।

नवम्बर 2026 के लिए फलादेश

ग्रह, नक्षत्र स्थिति के अनुसार स्वास्थ्य संबंधित विषयों के लिए यह एक अच्छा माह रहेगा। इस माह आपको पुरानी रोग पीड़ाएं से राहत का अनुभव होगा। गले के संक्रमण आदि को आपको गंभीरता से लेना होगा। इस विषय में किसी भी प्रकार का विकार होने पर आपको गंभीरता से जांच तथा ईलाज कराना होगा। साथ ही नेत्रों में किसी भी प्रकार का संक्रमण होने पर भी आपको विशेष सावधानी से काम लेना होगा। माह अवधि में आपका पाचन तंत्र, गठिया, वायु रोग तथा पुराने रोग प्रभावी न हो इसके लिए आपको इन रोगों के प्रति सतर्कता बरतनी होगी। सामान्य सावधानियां रखना भी स्वास्थ्य के लिए अनुकूल रहेगा।

दिसम्बर 2026 के लिए फलादेश

इस माह की ग्रह स्थिति के अनुसार आपको अपने स्वास्थ्य सुख को बनाए रखने के लिए बड़े स्तर पर व्यय करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य के पक्ष से यह स्थिति बहुत प्रेरणादायक नहीं है। फिर भी छोटी छोटी सावधानियां बनाए रखने से आप चिंताओं से मुक्त रह सकते हैं। अस्थमा और तरह-तरह की जीर्ण अनियमितताओं के होने का खतरा बन रहा है। लगातार उचित देखभाल सुनिश्चित करने से आप हालात की गिरावट को रोक सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको अपने सामर्थ्य शक्ति से अधिक परिश्रम करने से बचना चाहिए। अन्यथा सामान्य दुर्बलता की स्थिति भी आपके लिए काफी नुकसान देह हो सकती है। सामान्य सावधानियां निर्धारित करने से और चिंताजनक स्थितियों से स्वयं को दूर रखने से स्थिति आपके नियंत्रण में बनी रहे।

स्वास्थ्य - 2027

स्वास्थ्य की दृष्टि से वर्ष का पूर्वार्द्ध सामान्य रहेगा। लग्न स्थान पर शनि एवं राहु ग्रह की दृष्टि प्रभाव से आपको स्वास्थ्य संबंधित परेशानी उत्पन्न हो सकती है। अचानक स्वास्थ्य खराब हो सकता है, परन्तु एकादशस्थ गुरु के प्रभाव से आप जल्दी ही स्वस्थ भी हो जाएंगे।

26 जून के बाद समय काफी प्रतिकूल हो रहा है। उस समय मौसम जनित बीमारी, दुर्घटना या किसी प्रकार के शारीरिक कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। द्वादशस्थ गुरु के जल तत्व राशि में होने के कारण कफ रोग या मौसम सम्बन्धित बीमारियां घेर सकती हैं। ऐसे में स्वास्थ्य का ख्याल रखना जरूरी होगा। सुबह-सुबह व्यायाम करना या योगा करना आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। 21 नवम्बर के बाद स्वास्थ्य अनुकूल होना शुरु हो जाएगा।

जनवरी 2027 के लिए फलादेश

इस माह के दौरान आपको किसी भी प्रकार की प्रमुख स्वास्थ्य समस्या नहीं होगी। परन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि आप सभी सावधानियों को एक तरफ कर दें। इस माह अवधि में अत्यधिक संवेदनशील व्यक्तियों को पाचन अंगों की परेशानियां निष्क्रिय रहने से आपको इन परेशानियों से कुछ राहत मिल जाएगी। लेकिन उपचार और आहार दोनों मामलों में सामान्य सावधानियां जारी रखनी होगी। छाती क्षेत्र में किसी भी प्रकार के संक्रमणों के प्रति आपको खास ध्यान रखना होगा। इस विषय में किसी भी प्रकार के लक्षण उभरने पर तुरंत, बिना किसी देरी के उपचार कराना होगा। इन छोटी सी सतर्कताओं से आप इस माह अपने स्वास्थ्य शुभता को बनाए रख सकते हैं। इससे आपका स्वास्थ्य पूरे माह अच्छा रहना चाहिए।

फरवरी 2027 के लिए फलादेश

आपके स्वास्थ्य की शुभता बनाए रखने के लिए इस माह की ग्रह स्थिति का शुभ सहयोग आपको प्राप्त हो रहा है। इसलिए इस माह स्वास्थ्य के लिए चिंतित रहने के कारण कम ही बने हुए हैं। फिर भी आपको अचानक बुखार या सूजन आदि के ईलाज की आवश्यकता पड़ सकती है। जिसमें आपको उचित देखभाल और व्यायाम करना लाभकारी रहेगा। तत्काल उपचार से भी लाभ होगा। इस संबंध में उपेक्षा हितकारी नहीं रहेगी। अन्यथा रोग बिगड़ने पर आपके स्वास्थ्य की स्थिति गंभीर हो सकती है। इससे पूर्व किसी भी प्रकार का लिवर रोग हो तो इस रोग से बचाव का आपको ध्यान रखना होगा। बचाव के रूप में आप लिवर रोगों के लिए किसी टॉनिक का उपयोग कर सकते हैं। अपना ख्याल रखना आपकी स्वास्थ्य चिंताओं में कमी करेगा।

मार्च 2027 के लिए फलादेश

आपके स्वास्थ्य अनुकूलता के पक्ष से यह माह आपको अपना शुभ आशीर्वाद दे रहा है। सितारों की शुभता इस माह में आपके स्वास्थ्य सुख में वृद्धि कर रही है। पाचन तंत्र,

गठिया या पुरानी बीमारियों से संबंधित शिकायतें होने पर इस माह पेट फूलना एवं वायु रोग शांत रहेंगे। इन रोगों के लक्षणों का शांत रहना आपको राहत का अनुभव कराएगा। आहार और उपचार के लिए सामान्य सावधानियां रखने से आपको पुरानी बीमारियों से राहत मिल सकती हैं। लिवर की बीमारियों से आपको सावधान रहना होगा। इस अंग से संबंधित रोग यदि आपको पहले भी रहे हो तो इन रोगों को लेकर आपकी चिंताएं बढ़ सकती हैं। स्वयं को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक हो तो आप कोई टॉनिक भी ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस माह में स्वास्थ्य को लेकर चिंता की कोई बात नहीं है।

अप्रैल 2027 के लिए फलादेश

इस माह में अपना स्वास्थ्य सुख बनाए रखने के लिए आपको अधिक प्रयास नहीं करने होंगे। सितारों की शुभ स्थिति आपके स्वास्थ्य सुख को अनुकूल बनाए हुए हैं। अतः आप इस माह अपने स्वास्थ्य सुख का भरपूर आनंद लेंगे। इस माह आपको अपने सामर्थ्य से अधिक मेहनत करने से बचना होगा। संतुलित स्वास्थ्य नियमों का पालन कर आप इस सुखद स्थिति को बिगड़ने से बचा सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस माह आपको अनावश्यक रूप से अपनी ऊर्जा व्यर्थ नहीं करनी है। कार्यों को समय अनुसार बांटना इस संबंध में उपयोगी कदम सिद्ध हो सकता है। फिर भी आप अपने जीवन की अन्य गतिविधियों को सामान्य रूप से कर सकते हैं। किसी पुराने रोग की वापसी आपकी चिंताओं को बढ़ा सकती है। बचाव रखने से स्थिति में सुधार होगा।

मई 2027 के लिए फलादेश

इस माह में सितारों की शुभता आपको प्राप्त नहीं हो पा रही है। इसलिए आपको इस माह में अपने स्वास्थ्य से जुड़े कई पहलुओं के विषय में सावधान रहना होगा। बवासीर से पीड़ित लोगों को इसके ईलाज और आहार के लिए पहले से अधिक सावधानी बरतनी होगी। सावधानी बरतने से आपको अपनी स्वास्थ्य समस्याओं को सुलझाने में मदद मिलेगी। यदि आपको इससे पूर्व लिवर से संबंधित किसी भी प्रकार का रोग रहा हो तो आपको इन रोगों से बचाव करने के लिए खास सावधानी बरतनी होगी। इन रोगों पर नियंत्रण रखने के लिए आपकी जो भी दवाईयां आप लेते हो उन दवाईयों में चूक न करें। लिवर को स्वस्थ करने के लिए कोई अच्छा टॉनिक भी आप ले सकते हैं। इस माह में आपके स्वास्थ्य से संबंधित घटने वाली घटनाएं आपके अनुकूल नहीं होंगी। सावधानी रखना उत्तम रहेगा।

जून 2027 के लिए फलादेश

इस माह में आपके ग्रह, सितारों शुभ योग बना रहे हैं। जिसके कारण इस माह में स्वास्थ्य को लेकर गंभीर चिंता करने के अवसर कम ही बनेंगे। इसके अतिरिक्त बुखार, सूजन, अचानक रोग ग्रस्त होने से परेशानियों से आपको राहत महसूस होगी। किसी भी कारण से रोग ग्रस्त होते हैं तो शीघ्र उपचार कराना आपकी राहत को सुनिश्चित करेगा। आपको अपने लिवर रोगों को नियंत्रण में रखने के लिए सामान्य सावधानियां रखनी होंगी। इसके लिए किसी टॉनिक

का उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार कुछ सावधानियों का पालन कर आप स्वस्थ रह सकते हैं। इस माह चिंता करने का अन्य कोई कारण नहीं बन रहा है।

जुलाई 2027 के लिए फलादेश

स्वास्थ्य विषयों के लिए यह माह काफी लाभकारी रहेगा, इस माह अवधि में आपको अपने स्वास्थ्य की अधिक चिंता नहीं करनी पड़ेगी। यहां तक की गठिया, पाचन तंत्र, वायु रोग और पेट फूलना आदि पुरानी बीमारियों से आपको राहत का अनुभव होगा। किसी रोग के प्रभावी होने पर आपको रोग मुक्त होने में अधिक देखभाल नहीं करनी होगी। इस माह में आपको स्वास्थ्य परेशानियों से राहत मिलेगी। यदि आपको इससे पूर्व ही लिवर संबंधी रोग परेशान करते रहते हैं तो इस अवधि में आप इसके उपचार के लिए कोई उपयुक्त दवा ले सकते हैं। बचाव करने से रोग शीघ्र प्रभावी नहीं होंगे।

अगस्त 2027 के लिए फलादेश

इस माह अवधि में ग्रहों का संयोजन आपके स्वास्थ्य सुख को शुभ कर आपको प्रोत्साहित कर रहा है। इस माह में आप सामान्य सतर्कताओं का पालन कर अपने स्वास्थ्य को बनाए रखेंगे। माह अवधि में आप अपने सामर्थ्य से अधिक मेहनत कार्य न करें। यह आपके स्वास्थ्य में कमी करेगा और आपके लिए बहुत बुरा रहेगा। अपनी ऊर्जा शक्ति का अनावश्यक व्यय बचाने के लिए आप स्फूर्ति और स्वस्थता के लिए खेल गतिविधियों को समय दे सकते हैं। कार्यभार की अधिकता से बचने के लिए आप अपनी गतिविधियों की एक सूची तैयार कर कार्य को दिनभर के समय में बांट सकते हैं परन्तु आपको ध्यान रखना है कि आप अपने कार्यक्रम का कठोरता से पालन करें। इस विषय में आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। इसके अतिरिक्त सितारे इस माह आपको ओर कोई परेशानी नहीं देंगे।

सितम्बर 2027 के लिए फलादेश

इस माह की ग्रह स्थिति आपके स्वास्थ्य के पक्ष से बहुत ज्यादा प्रेरणादायक और उत्साहजनक नहीं हैं। हमेशा की तरह इस स्थिति में आपको अपने रोगों को नियंत्रित करने के लिए स्वयं के प्रयासों और बुद्धि पर काफी भरोसा करना होगा। जुकाम, खांसी जैसी गड़बड़ियों से आपको काफी परेशानी हो सकती हैं। ऐसे रोगों का आपको हर संभव उपचार और ध्यान रखना होगा। लिवर रोगों की पुरानी परेशानी होने पर आपको इनसे बचाव के उपाय करने लाभकारी रहेंगे। लिवर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आप आवश्यक टॉनिक ले। यह आपके रोगों में कमी करने में मदद करेगा। माह अवधि के सितारें आपके लिए बहुत उत्साहजनक नहीं हैं। आपको ख्याल रखना होगा।

अक्टूबर 2027 के लिए फलादेश

आपके स्वास्थ्य के बारे में इस माह की भविष्यवाणी काफी संतोषजनक नहीं हैं।

इसलिए इस माह आपको स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहना होगा। शीघ्र होने वाले रोग जैसे अचानक बुखार या सूजन होने पर आपको शीघ्र ईलाज करना हितकारी रहेगा। कुछ सावधानियां रखने से स्वास्थ्य सुख बना रहेगा। स्वास्थ्य अनियमितताओं को अनदेखा करना आपके लिए लाभकारी नहीं रहेगा। रोग के प्रथम लक्षण स्पष्ट होने पर ही चिकित्सा सहायता लेना आपके लिए लाभकारी रहेगा। यह बहुत आवश्यक है कि आप सावधानियों का सख्ती से पालन करना आवश्यक है। यह समय आपके लिए बहुत अच्छा बना रहें आपको यह सुनिश्चित करना है। तथा आपको घटनाओं को समझ कर कठिनाईयों को दूर करना है। यह भी हो सकता है कि यह एक सुरक्षा कवच की तरह से काम करें। इसलिए अतिरिक्त यदि आपको किसी भी प्रकार की लिवर समस्या है तो आपको इसके उपचार के लिए शीघ्र अतिशीघ्र चिकित्सक से संपर्क कर ईलाज कराना और कोई टॉनिक लेना आपके लिए लाभकारी रहेगा।

नवम्बर 2027 के लिए फलादेश

इस माह अवधि में सितारों की स्थिति आपके प्रतिकूल होने के कारण आपको किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। इसलिए स्वास्थ्य सुख को बनाए रखने के लिए आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान स्वयं ही रखना होगा। ग्रह स्थिति के अनुकूल न होने से इस माह में आपको पेट फूलना, वायु रोग, पाचन तंत्र और पुराने रोग के कारण चिकित्सक की सलाह लेनी पड़ सकती है। ऐसे रोगों को निष्प्रभावी करने के लिए आपको उपचार और आहार के विषयों में सतर्कता बनाए रखनी होगी। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको इसका नुकसान स्वयं भुगतना होगा। इसके अलावा आपको लिवर की बीमारियों से भी सावधान रहना होगा। माह अवधि में अपना विशेष ख्याल रखना आपके लिए मददगार सिद्ध होगा।

दिसम्बर 2027 के लिए फलादेश

इस माह सितारों के शुभ आशिर्वाद से आपके सभी रोगों से संबंधित मामलों का समाधान हो रहा है। इस कारण आप इस अवधि विशेष में स्वस्थ एवं चुस्त रहेंगे तथा आपके कम से कम रोगग्रस्त होने की संभावना बन रही है। अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्कता बनाए रखना आपके स्वास्थ्य सुख को बढ़ाएगा। माह अवधि में आप अत्यधिक मेहनत करने से बचें। अत्यधिक मेहनत करने से स्वास्थ्य सुख में कमी हो सकती है। स्वयं को स्फूर्ति प्रदान करने के लिए आप अपने मनपसंद खेलों का प्रयोग कर स्वयं को प्रसन्न रख सकते हैं। साथ ही आपको अपनी शक्ति का प्रयोग अनावश्यक कार्यों पर करने से बचना होगा। तथा कार्यों को समय सारणी के अनुसार दिन के सारे समय में वितरित करना होगा। इससे सीमित समय में कार्यभार अधिक होने से बचा जा सकता है। साथ ही आपको जिगर संबंधी मुसीबतों का भी विशेष ध्यान रखना होगा।

स्वास्थ्य - 2028

स्वास्थ्य की दृष्टि से वर्ष का प्रारम्भ उत्तम रहेगा। लग्नस्थ गुरु पर शनि की दृष्टि प्रभाव से शारीरिक आरोग्यता में वृद्धि होगी जिससे रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ेगी। फरवरी के बाद समय प्रतिकूल हो रहा है। द्वादशस्थ गुरु एवं अष्टमस्थ शनि के प्रभाव से स्वास्थ्य में अचानक उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। कफ, मधुमेह, पेट संबंधित एवं मौसमजनित बीमारियों के कारण ज्यादा परेशान हो सकते हैं। कभी कभी बीमारी नहीं होने के बावजूद बीमार जैसा अनुभव होगा।

24 जुलाई के बाद गुरु ग्रह का गोचरीय प्रभाव लग्न स्थान में होने से स्वास्थ्य में सुधार आना शुरू हो जाएगा। अच्छे स्वास्थ्य के लिए खान-पान एवं दिनचर्या को सुधारें। आपकी धर्मपत्नी आपकी सेहत का पूरा ध्यान रखेगी।

जनवरी 2028 के लिए फलादेश

इस माह में ग्रह, सितारों का संयोजन आपके स्वास्थ्य के लिए काफी अनुकूल है। अपच जैसे रोगों से ग्रस्त लोगों को माह अवधि में इन रोगों से राहत मिलेगी। इसके अतिरिक्त पाचन अंगों के शीघ्र बिगड़ जाने से परेशान व्यक्तियों को भी इस समय में सुखद अनुभव होगा। फिर भी आप इन रोगों के प्रति नियमित रूप से आवश्यक सावधानी बनाए रखें। इसके अतिरिक्त खांसी, अस्थमा जैसी पुरानी शिकायतों के प्रति भी आपको सावधानी रखनी होगी। भोजन में विषाक्तता से पीड़ित हो सकते हैं। कुछ सामान्य सावधानियों का पालन करें और अशुद्ध खाना खाने से बचें। सतर्कता बनाए रखने से यह माह आपके लिए काफी उत्साहजनक माह रहेगा।

फरवरी 2028 के लिए फलादेश

यह माह स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लिए काफी फायदेमंद माह सिद्ध होगा। अचानक से बुखार और शीघ्र क्रोध की स्थिति बनने जैसे रोगों के शांत रहने से आपको पर्याप्त राहत मिलेगी। माह अवधि में आपका स्वभाव कभी गंभीर कभी प्रसन्नचित्त रहेंगे। नेत्र संक्रमणों के प्रभावी होने की आंशका बन रही हैं। लेकिन इस संबंध में अधिक परेशान होने की संभावना नहीं बन रही हैं क्योंकि आपको जल्द ही इन रोगों से राहत मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का अशुद्ध भोजन लेकर खाने में सावधानी बरतना एक अच्छा व उपाय रहेगा। विषाक्त भोजन आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। कुल मिलाकर इस माह में आपको कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या के न होने से यह माह आपके लिए लाभकारी माह सिद्ध होगा।

मार्च 2028 के लिए फलादेश

सितारों की शुभता आपके स्वास्थ्य शुभता के लिए बहुत उदार नहीं बनी हुई है। इसलिए इस माह में आपको कुछ स्वास्थ्य परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पेट

फूलना, पाचन तंत्र, वायु रोगों के रोग तथा पुरानी बीमारियों में फिर से गड़बड़ी हो सकती है। आहार और उपचार दोनों पर निगरानी रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा। आहार पर नियंत्रण रखने से आप आसानी से अपने रोगों पर नियंत्रण बनाए रख सकते हैं। अशुद्ध खाद्य पदार्थों का सेवन करने से बचना भी आपके लिए उत्तम रहेगा। सावधानी के साथ-साथ व्यायाम करने से भी स्थिति में सुधार होगा। यह समय आपके लिए बहुत अनुकूल नहीं है इसलिए अधिक से अधिक ध्यान देना लाभकारी रहेगा।

अप्रैल 2028 के लिए फलादेश

इस माह सितारों की अनुकूलता से आपके स्वास्थ्य विकारों का समाधान हो रहा है। ग्रहों की शुभता यह सुनिश्चित कर रही है कि इस अवधि में आपको कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या नहीं होनी चाहिए। आपके स्वभाव में भी गंभीरता कम और उत्साह अधिक होगा। अत्यधिक परिश्रम के खिलाफ आपको सतर्कता बरतनी होगी। अत्यधिक परिश्रम इस समय बनी हुई सुखद स्थिति को खराब कर सकता है। अनावश्यक रूप से अपने शारीरिक तंत्र पर तनाव डालना ठिक नहीं होगा। अपने दैनिक गतिविधियों को इस प्रकार निर्धारित करें कि आपके शरीर पर बहुत अधिक दबाव न पड़े। इससे आपकी स्वास्थ्य समस्याओं के एक बड़े हिस्से का सुधार होगा। इस विषय में आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। तनाव से बचना आपके स्वास्थ्य सुख के लिए उत्तम रहेगा। अन्यथा इस माह की अनुकूल परिस्थितियां भी किसी गंभीर समस्याओं को रोकने में असमर्थ हो सकते हैं। समय की शुभता होने से इस माह की स्थिति उत्साहजनक बनी हुई है।

मई 2028 के लिए फलादेश

स्वास्थ्य के पक्ष से यह समय आपके सितारों के अनुसार बहुत अनुकूल समय नहीं है। बवासीर जैसे रोगों में गड़बड़ी होने से आप परेशान हो सकते हैं। माह अवधि में अतिरिक्त देखभाल और ध्यान का प्रयोग करना होगा। स्वभाव में विनम्रता की कमी तथा स्वभाव में गंभीरता हो सकती है। यह भी आपके स्वास्थ्य के लिए खतरा सिद्ध हो सकती है। काम विषयों में कमी करने से आपके यौन संक्रमण में कमी हो सकती है। आपको यह विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि इस विषय में आपको अपनी अधिक से अधिक देखभाल करनी होगी। किसी बासी खाद्य या अशुद्ध भोजन सेवन से भी स्वास्थ्य सुख में कमी होने की आशंका बन रही है। विषाक्त भोजन करने से बचें। इसके लिए आपको बहुत सावधान रहना होगा। आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर काफी सतर्कता रखनी होगी। कुल मिलाकर यह अवधि सावधानी रखने पर अनुकूलता लिए हुए है।

जून 2028 के लिए फलादेश

इस माह में बन रही ग्रहों की स्थिति आपको कोई गंभीर स्वास्थ्य परेशानी या दुर्घटना न होना सुनिश्चित कर रही है। यह माह आपके लिए एक लाभकारी माह रहेगा। इस माह में बुखार, सूजन या अचानक से किसी गंभीर बीमारियों में कोई गड़बड़ी न होने से आपको

महत्वपूर्ण राहत मिलेगी। इस प्रकार की समस्याएं आपको परेशान नहीं करेंगी। आपका स्वभाव उत्साहजनक बना रहेगा। पुरानी गठिया, जुकाम जैसे विकारों से ग्रस्त लोगों को भी राहत मिलेगी। फिर भी इस माह दुर्घटना या हिंसक चोट की संभावना बन रही हैं। अपने स्वास्थ्य की कुछ अतिरिक्त देखभाल करने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। कुल मिलाकर यह माह आपके स्वास्थ्य शुभता को प्रोत्साहित कर रहा है।

जुलाई 2028 के लिए फलादेश

माह अवधि में सितारों आपको कोई गंभीर स्वास्थ्य परेशानी या दुर्घटना न होने का योग सुनिश्चित कर रहे हैं। यह माह आपके लिए एक लाभकारी माह रहेगा। बुखार, सूजन या अचानक से होने वाली गंभीर बीमारियों में कोई गड़बड़ी न होने से आपको अच्छा महसूस होगा। इस प्रकार की समस्याओं के शांत रहने से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इस माह अवधि में आपका स्वभाव अनुकूल और सकारात्मक बना रहेगा। पुरानी गठिया, जुकाम आदि विकारों में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। जीर्ण बीमारियों की वापसी न होने से आपको राहत का अनुभव होगा। इस माह में आपको कोई हिंसक चोट लगने की संभावना नहीं बन रही है। अतिरिक्त देखभाल करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। कुल मिलाकर यह माह आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूलता लिए हुए एक सुखद माह सिद्ध हो सकता है।

अगस्त 2028 के लिए फलादेश

आपके स्वास्थ्य के लिए यह माह काफी फायदेमंद माह रहेगा। इस माह आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना चाहिए। फिर भी इस अवधि में आपको अधिक परिश्रम करने से परहेज करते हुए, सतर्कता बरतनी चाहिए। यह आपके लिए स्वास्थ्य समस्याओं के आमंत्रण का कारण बन सकता है। परिश्रम की अधिकता आपके शारीरिक तंत्र पर अनुचित दबाव डाल सकती है। काथी और गतिविधियों का पूर्वनियोजन आपको अतिरिक्त दबाव से बचाएगा। वरना कुछ अनहोनी होने की संभावना बन सकती है। उपचार की तुलना में हमेशा एहतियात बेहतर रहेगा तथा माह अवधि में आपको विषाक्त भोजन के प्रति भी सावधानी रखनी चाहिए। कुछ अशुद्ध या बासी भोजन का सेवन करते समय आपको विशेष ध्यान देना होगा। यह लाभकारी माह है जिसके दौरान आप सामान्य रूप से स्वस्थ रहेंगे।

सितम्बर 2028 के लिए फलादेश

इस माह के सितारों का संयोजन आपके स्वास्थ्य को अनुकूल बनाए रखेगा। माह की संभावनाएं आपके स्वास्थ्य की अनुकूलता को प्रोत्साहित कर रही है। आप स्वभाव से प्रसन्नचित्त बने रहेंगे। आपमें उत्साह का भाव बना रहेगा। ठंड में हाथ और पैरों में कोई गड़बड़ी न होने से आपको महत्वपूर्ण राहत मिलेगी। इस माह में आपका नर्वस तंत्र आंशिक रूप से प्रभावित हो सकता है। भोजन विषाक्तता की स्थिति बन सकती है। अशुद्ध भोजन करने से बचें अन्यथा स्वास्थ्य में कमी हो सकती है। सावधानी रखने से कठिनाईयां कम से कम होंगी और यह आपके लिए काफी फायदेमंद माह सिद्ध होगा।

अक्टूबर 2028 के लिए फलादेश

इस माह के सितारों आपके स्वास्थ्य कमियों को दूर कर रोगों का निपटारा कर रहे हैं और अन्य किसी रोग को लेकर गंभीर चिंता का कोई कारण नहीं बन रहा है। स्वयं को सुखमय बनाए रखने के लिए आप जीवन में नकारात्मक विचार धारा से दूर होकर हंसमुख बने रहें। इससे आपकी आरोग्यता दीर्घकाल के लिए सुनिश्चित होगी। साथ ही बुखार, सूजन एवं गंभीर बीमारियों के शांत रहने से आपको रोग कठिनाईयों से बड़ी राहत प्राप्त होगी। इस अवधि काल में आपको सिर से जुड़ी कुछ परेशानियां आ सकती हैं। इस प्रकार के रोग के गंभीर रूप धारण करने से पहले आप इसके निवारक उपाय के रूप में सिर के लिए टॉनिक का प्रयोग कर सकते हैं। यह माह आपके लिए काफी संतोषजनक माह सिद्ध होगा क्योंकि इस माह में आपके किसी भी गंभीर बीमारी से ग्रसित होने की संभावना नहीं है।

नवम्बर 2028 के लिए फलादेश

इस माह अवधि के सितारों का संयोजन आपके स्वास्थ्य सुख को सुनिश्चित कर रहा है। माह अवधि में सतर्कता और सावधानी बनाए रखना आपके लिए हितकारी रहेगा। पाचन तंत्र, गठिया जैसी अनियमितताओं में गड़बड़ी होने से आपकी स्वास्थ्य परेशानियां बढ़ सकती हैं। माह अवधि में आपको बहुत अधिक देखभाल और ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। गले के रोग आपको स्वास्थ्य परेशानियां दे सकते हैं। यदि आपको हृदय से संबंधित कोई रोग या लक्षण दिखाई देता है तो आपको इनकी जटिलताओं की बारीकी से जांच करानी चाहिए। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना आपको स्वस्थ रहने में मदद करेगा।

दिसम्बर 2028 के लिए फलादेश

सितारों का संयोजन आपके स्वास्थ्य के लिए इस माह अनुकूल नहीं बन रहा है। इस माह में आपको ज्यादा ध्यान और देखभाल की जरूरत पड़ सकती है। साथ ही इस माह में अत्यधिक परिश्रम करना आपको थकावट का कारण बन आपको दुर्बलता की स्थिति दे सकता है। यहां तक की आपके तंत्रिका विकार भी पीड़ित होने की संभावना बन रही है। यह स्थिति न बने इसके लिए सावधान रहना चाहिए। कार्यों की अधिकता से अनावश्यक रूप से आपके शारीरिक तंत्र पर पड़ने वाले दबाव को कम करना होगा। तथा छती में किसी भी प्रकार के संक्रमण का आपको तुरंत ईलाज करना होगा।

स्वास्थ्य - 2029

वर्षारम्भ में अष्टमस्थ शनि एवं लग्नस्थ मंगल के प्रभाव से आपका स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रहेगा। मौसमजनित बीमारियों से आपका स्वास्थ्य प्रभावित होता रहेगा। 29 मार्च के बाद लग्न स्थान पर गुरु ग्रह के गोचरीय प्रभाव से आपके स्वास्थ्य में काफी सुधार आएगा। आप मानसिक रूप से सन्तुष्ट रहेंगे। प्रत्येक कार्य को आप सकारात्मक रूप से करेंगे। रोग प्रतिरोधक शक्ति विकसित होगी। मानसिक शान्ति एवं शारीरिक आरोग्यता प्राप्त होगी और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे।

05 अक्टूबर से फिर से स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है परन्तु आप शीघ्र ही अच्छे हो जाएंगे और अपने स्वास्थ्य को अनुकूल रखने के लिए नियमित व्यायाम करेंगे। शुद्ध शाकाहारी भोजन ही ग्रहण करेंगे। जिससे आपका स्वास्थ्य अनुकूल बना रहेगा।

जनवरी 2029 के लिए फलादेश

इस माह के ग्रहों की स्थिति आपके स्वास्थ्य मामलों का समाधान कर रही हैं। इसलिए इस माह में आप स्वस्थ और कम से कम बीमार रहेंगे। फिर भी यदि आपके पाचन अंग काफी आसानी से अव्यवस्थित हो जाते हैं तो इस माह में आपको इन रोगों से राहत का अनुभव होगा। वायु रोगों के प्रति सावधानी बनाए रखना हितकारी रहेगा। तथा रोग अनियमितताओं के प्रति सावधान रहना होगा। अपने स्वास्थ्य को अनुकूल रखने के लिए आपको उपचार से बचने के लिए सावधानियों का ध्यान रखना होगा। खांसी, जुकाम और छाती से संबंधित किसी भी संक्रमण से बचने के लिए आपको एहतियात से काम लेना होगा। रोग ग्रस्त होने पर शीघ्र दवा लेने से स्थिति गंभीर नहीं होगी।

फरवरी 2029 के लिए फलादेश

इस माह के सितारों का सुरक्षा कवच आपके रोगों को दूर रखेगा। इस माह के अधिकतम समय में आप स्वयं को स्वस्थ और चुस्त रखेंगी। शीघ्र प्रभावित होने वाले रोग जैसे बुखार आदि के प्रति आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। आपको स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की अनियमितता को अनदेखा करने से बचना होगा। ग्रहों की स्थिति आपके स्वास्थ्य को शुभ बनाए रखने के लिए शुभ बनी हुई हैं। अनहोनी होने का कोई संकेत नहीं बन रहा है। लेकिन फिर भी आप अप्रिय स्थानों और लोगों से दूर रहें। इस विषय में आपको सावधानी रखनी होगी। अपना ध्यान रखने से आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा।

मार्च 2029 के लिए फलादेश

इस माह अवधि के ग्रहों की स्थिति और योग आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे नहीं बने हुए हैं। इस माह अपना स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आपको सावधानी रखनी होगी। कब्ज, पाचन तंत्र, वायु रोग और आंत से जुड़ी पुरानी बीमारियों की गड़बड़ी आपको परेशान कर

सकती हैं। उचित दवा और आहार लेते रहन आपको स्वास्थ्य सुख प्रदान करेगा। छोटी छोटी सी अतिरिक्त देखभाल का ध्यान रखने से आप गंभीर परेशानियों से मुक्त रह सकते हैं। अप्रिय स्थानों और लोगों से दूरी रखने का आपके स्वास्थ्य पर सीधा असर पड़ेगा। आपके पासपास के लोगों के स्वभाव की आपके स्वास्थ्य सुख में महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी।

अप्रैल 2029 के लिए फलादेश

इस माह के सितारों की स्थिति आपको स्वस्थता प्रदान कर रही हैं। कुछ विषयों को छोड़कर अन्य सभी स्वास्थ्य मामलों का इस माह समाधान होगा और आप असंतुष्ट नहीं रहेंगे। अपने स्वास्थ्य को अनुकूल बनाए रखने के लिए आपको सावधानी के रूप में अत्यधिक परिश्रम से बचना होगा। स्वयं को स्फूर्ति प्रदान करने के लिए आपको सभी प्रकार की सामान्य गतिविधियों को समय देना चाहिए। खेल और रुचियों को समय देना भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। कार्यों में कमी करने के लिए आप एक कार्य सारणी बनाकर इसका प्रयोग कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इससे पूर्व चली आ रही स्वास्थ्य अनियमितताओं का आपको ख्याल रखना होगा। अप्रिय लोगों और अप्रिय स्थानों से दूर रहना होगा। तथा स्वास्थ्य सुख में स्थिरता बनाए रखने के लिए आपको अच्छे वातावरण में रहना होगा।

मई 2029 के लिए फलादेश

जहां तक आपके स्वास्थ्य का सवाल है इस माह की ग्रह स्थिति की शुभता आपके लिए आंशिक रूप से अनुकूल बनी हुई हैं। इसलिए इस माह आपको अतिरिक्त देखभाल की जरूरत पड़ सकती हैं। इस माह में आपकी स्वास्थ्य अनुकूलता बहुत कम रहेगी। इसके अलावा आपको अप्रिय लोगों और स्थानों से दूर रहना होगा। आपके सामान्य परिवेश का आपकी स्वास्थ्य स्थिति पर सीधा असर पड़ेगा। अतः आप नकारात्मक स्वभाव के लोगों से दूरी बनाए रखें। अपनी भलाई को देखते हुए आप एहतियात बरत कर स्वास्थ्य से संबंधित खतरों को रद्द कर सकते हैं। अत्यधिक काम आसक्ति से भी आपको बचना होगा। यह आपके यौन अंगों की बीमारी दे सकता है। इस प्रकार के रोगों के प्रति आपको सतर्कता बरतनी होगी। उपचार की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि आप शीघ्र उपचार करें।

जून 2029 के लिए फलादेश

इस माह के ग्रहों एवं सितारों की शुभता आपको उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्रदान कर आपके स्वास्थ्य विकारों का निराकरण कर रही हैं। आपके स्वास्थ्य की स्थिति का निर्धारण करने और उसे सुखद बनाए रखने में आपके पास-पास के वातावरण के महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इसलिए इस विषय में आपको ध्यान रखना चाहिए। यह आपके स्वास्थ्य के लिए उत्तम बना हुआ है फिर भी इस माह कुछ अनहोनी के संकेत बन रहे हैं। एहतियात के रूप में अप्रिय लोगों, अप्रिय स्थानों से दूर रहना आपके स्वास्थ्य के लिए हितकारी रहेगा। आपके स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखने में यह विशेष भूमिका निभाएगा। किसी भी प्रकार के मामूली बुखार या सूजन के ईलाज के विषय में आपको सतर्कता बनाए रखनी होगी। ऐसे रोगों का शीघ्र उपचार कराने

से ये समय पर नियंत्रित रहेंगे।

जुलाई 2029 के लिए फलादेश

स्वास्थ्य को स्थिर रूप में उत्तम बनाए रखने के लिए इस माह की ग्रह, घटनाएं आपको सहयोग कर रही हैं। पाचन तंत्र, पुरानी बीमारियों की गड़बड़ी, पेट फूलना एवं वायु रोग के शांत रहने से आपको इन परेशानियों में काफी राहत का अनुभव होगा। अधिक से अधिक सामान्य सावधानियां रखने से आपको कम से कम परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यह आपको राहत प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त इस माह आपका सौहार्दपूर्ण वातावरण और सकारात्मक स्वभाव के लोगों के साथ रहना आपके स्वास्थ्य के लिए उत्तम रहेगा। साथ ही इस अवधि में अप्रिय परिवेश से दूर रखना आपके स्वास्थ्य सुख को बढ़ाएगा। आपके आस पास का सौहार्दपूर्ण वातावरण आपके स्वास्थ्य की स्थिति का निर्धारण करने में प्रमुख भूमिका अदा करेगा। इसलिए अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखना इस माह आपके हाथ रहेगा।

अगस्त 2029 के लिए फलादेश

आपके स्वास्थ्य को बनाए रखने में इस माह ग्रहों से बहुत कम मदद मिल रही है। इसलिए अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आपको स्वयं अपना ध्यान रखना होगा। अत्यधिक परिश्रम की वजह से आप सामान्य दुर्बलता का अनुभव करेंगे। यहां तक की आपका तंत्रिक विकार रोग ग्रस्त हो सकता है। अत्यधिक परिश्रम करने से आपको बचना होगा। इससे बचने के लिए आपको अपने कार्यों की सारणी पर प्रकाश डालना होगा। अत्यधिक कार्य करना आपके शारीरिक तंत्र पर अनुचित दबाव डाल आपके स्वास्थ्य में कमी कर सकती है। फिर भी आप सामान्य गतिविधियां के अनुरूप अपना जीवन यापन कर सकते हैं। यदि आप इन सब सावधानियों का पालन करते हैं तो आपके पास स्वास्थ्य सुख न होने का कोई उपयुक्त कारण नहीं है। अप्रिय लोगों और अप्रिय स्थानों के प्रभाव में रहना आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। ऐसे विषयों से दूरी आपके स्वास्थ्य सुख को बढ़ाएगी।

सितम्बर 2029 के लिए फलादेश

ग्रहों की शुभ स्थिति के आशिर्वाद के कारण यह माह आपके लिए उत्तम बना हुआ है। इसलिए इस माह आपको कम देखभाल और ध्यान की आवश्यकता रहेगी। फिर भी आपका अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्कता बनाए रखना स्वास्थ्य सुख को बेहतर बनाएगा। यह माह आपके स्वास्थ्य शुभता के लिए अतिउत्तम बना हुआ है। आपके सामान्य परिवेश की प्रकृति भी काफी हद तक आपके स्वास्थ्य शुभता का निर्धारण करेगी। नकारात्मक विचारधारा के लोगों से बचने के लिए आप इस प्रकार के लोगों से दूरी बनाए रखें। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अप्रिय लोगों से दूरी बनाए रखें। कुल मिलाकर यह अवधि आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल स्थिति है। खांसी, जुकाम जैसे रोग आपके स्वास्थ्य सुख में आंशिक कमी कर सकते हैं। इन रोगों से बचने के लिए एहतियात बनाए रखना एक अच्छा विचार होगा।

अक्टूबर 2029 के लिए फलादेश

इस माह के दौरान बनने वाली ग्रह युति आपके स्वास्थ्य को शुभ आशिर्वाद प्रदान कर रही हैं। आप अचानक से किसी रोग के प्रभाव में आ सकते हैं इस प्रकार की बीमारियों के उपचार के प्रति आपको सावधान रहना होगा। उपचार के बिना यदि स्वास्थ्य शुभता बनी रहे तो आपके स्वास्थ्य के लिए उत्तम रहेगा। उपचार शीघ्रता से कराना उति उत्तम फल प्रदान करेगा। इससे रोगों का शीघ्र समाधान होगा और रोग अपनी आरम्भिक अवस्था में ही शांत हो जायेंगे। इस माह विशेष चिंता का कोई कारण नहीं बन रहा है। स्वास्थ्य के पक्ष से भी यह समय शुभफलदायक बना हुआ है। ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में बन रही हैं। इसलिए स्वास्थ्य को लेकर आप किसी तरह से चिंतित नहीं रहेंगे।

नवम्बर 2029 के लिए फलादेश

इस माह के सितारें आपको अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुभ आशिर्वाद दे रहे हैं। इसलिए इस माह में आपको अपने स्वास्थ्य के लिए किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी होगी। यहां तक कि गठिया, वायु रोग, पेट फूलना, पाचन तंत्र और पुराने रोगों के निष्प्रभावी रहने से आपको काफी राहत का अनुभव होगा। इस माह की ग्रह स्थिति आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल रहेगी। लेकिन फिर भी ध्यान न रखने पर अनुकूल स्थिति भी प्रतिकूल सिद्ध हो सकती हैं। स्वास्थ्य के लिए विपरीत माहौल में रहने से आप रोगों के प्रभाव में आ सकते हैं। इसलिए संक्रमित स्थानों से दूर रहना आपके लिए हितकारी रहेगा। किसी भी तरह का संक्रमण होने पर तुरंत ईलाज कराना लाभदायक रहेगा।

दिसम्बर 2029 के लिए फलादेश

जहां तक आपके स्वास्थ्य का प्रश्न है यह माह आपके स्वास्थ्य के लिए शुभफलदायक रहेगा। अपने स्वास्थ्य को लेकर इस माह आपको अधिक चिंता नहीं करनी होगी। फिर भी इस माह आपको अपने स्वास्थ्य की अनुकूलता का ध्यान रखना होगा। अपने स्वास्थ्य को निरंतर अच्छा रखने के लिए कुछ सावधानियां रखना आपके लिए लाभकारी रहेगा। इस माह सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको इस माह अत्यधिक मेहनत करने से बचना चाहिए। इसके लिए आपको अपने कार्यों के पूर्व में ही एक रूपरेखा या समय सारणी तैयार करनी होगी। इस समय-सारणी का कठोरता से पालन करने से स्वास्थ्य सुख बना रहेगा। किसी भी तरह के संक्रमण के प्रति आपको सावधान रहना होगा। इससे आप स्वास्थ्य दिक्कतों का निवारण कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की विफलता आपके स्वास्थ्य रोगों को आमंत्रित कर सकती हैं। इसके अलावा आपको छाती के रोगों के संक्रमण के प्रति भी सावधान रहना होगा।

स्वास्थ्य - 2030

वर्ष की प्रारम्भिक तिमाही छोड़ दें तो पूरे वर्ष आप स्वस्थ रहेंगे। आप मानसिक और शारीरिक दोनों रूपों से स्वस्थ रहेंगे अपने स्वास्थ्य को अनुकूल रखने के लिए आप नियमित रूप से व्यायाम या योगा करते रहेंगे जिससे आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहेगा।

कुछ समय ऐसा भी आएगा जब आप खुद को थका हुआ महसूस करेंगे किन्तु कोई बड़ी स्वास्थ्य संबंधित समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अतः आप तनाव व चिंतामुक्त रहें। 23 सितम्बर के बाद अपने खान-पान पर अधिक ध्यान दें और आलस्य न करें। यह आपके स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद रहेगा।

जनवरी 2030 के लिए फलादेश

इस माह सितारों आपको अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं इसलिए यह माह आपके लिए एक उत्कृष्ट माह रहेगा। इस माह आप न केवल स्वस्थ रहेंगे बल्कि इस माह आपको अपने आहार का पूरा लाभ प्राप्त होगा। पाचन तंत्र भी आपके लिए शुभ बना हुआ है। स्वास्थ्य अनुकूलता होने से आप माह भर सक्रिय और ऊर्जावान बने रहेंगे। आपको अपनी उत्पादक शक्तियों पर गर्व होगा। यह माह आपके लिए शारीरिक सुख का आनंद लेने के लिए बना हुआ है। भावनात्मक और मानसिक रूप से भी माह की शुभता बनी हुई है। इस माह में ग्रहों की स्थिति आपके लिए प्रसन्नता लिए हुए रहेगी।

फरवरी 2030 के लिए फलादेश

यह माह एक ऐसा माह है जिसमें ग्रह योग, सितारों के आशीर्वाद से आप अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेने के लिए तत्पर हो सकते हैं। इस माह आपका स्वास्थ्य अच्छा तो रहेगा ही साथ ही इस माह आपका शारीरिक तंत्र अनुकूल होने से आपको आहार का पूरा लाभ प्राप्त होगा। जिससे आपका स्वास्थ्य सुख पहले से बेहतर होगा। इस माह उत्पादक शक्तियों में बढ़ोतरी होगी। यह बढ़ोतरी आपके लिए सुखद होकर आश्चर्य चकित कर सकती है। आप इस समय में काफी सक्रिय और ऊर्जावान बने रहेंगे। साथ ही इस समय में आपका भावनात्मक और मानसिक स्थिति प्रबल बनी रहेगी। संतुलित आहार और सावधानियों का पालन करने से स्वास्थ्य की सुखद स्थिति बनी रहेगी अन्यथा यह बिगड़ सकती है। नेत्र संक्रमण के खिलाफ आपको सतर्कता बरतनी होगी। यदि इनका समय रहते निराकरण हो जाता है तो संक्रमण शीघ्र शांत हो जाएगा।

मार्च 2030 के लिए फलादेश

इस माह अवधि में आपको अतिरिक्त देखभाल और ध्यान की जरूरत पड़ सकती है। क्योंकि इस माह में ग्रह, सितारों का शुभ आशीर्वाद का अभाव बन रहा है। इसकी क्षतिपूर्ति

करने के लिए आपको अपना खास ख्याल रखना होगा। पाचन अंग, वायु और पुरानी बीमारियों से संबंधित शिकायतें आपके लिए परेशानियां खड़ी कर सकती हैं। आपको इन रोगों से बचाव हेतु सतर्कता बनाए रखनी होगी। समय पर उचित उपचार न कराना आपकी समस्याओं को गंभीर रूप प्रदान कर सकता है। इसके अतिरिक्त आपके छोटे रोग भी लम्बी अवधि के रोगों में परिवर्तित हो सकते हैं। आपको अपनी उत्पादक शक्तियों के बारे में भी सावधान रहनी की आवश्यकता रहेगी। सावधानियां एक निवारक उपाय के रूप में कार्य करेंगी। माह अवधि के दौरान अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना आपको प्रतिकूल समय में स्वस्थता प्रदान करेगा।

अप्रैल 2030 के लिए फलादेश

इस माह ग्रह योग आपके स्वास्थ्य को अपना शुभ आशीर्वाद देने की स्थिति में नहीं हैं। इसलिए आपको स्वयं अपना ध्यान रखना होगा। आपके स्वास्थ्य के लिए यह बहुत अनुकूल स्थिति नहीं है। इसलिए इस समय में आपको कुछ स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। माह अवधि में सबसे पहले अधिक परिश्रम करने से बचना होगा। यह कार्य आपके शारीरिक तंत्र पर अधिक दबाव डाल सकता है। अपने दैनिक कार्यों और गतिविधियों को पूर्ण करने के लिए आप इन्हें दिन के छोटे छोटे हिस्सों में बांट कर सकते हैं। इसके लिए आप एक अनुसूची भी तैयार कर सकते हैं। अपनी अतिरिक्त देखभाल कर आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के बड़े हिस्से का निराकरण कर सकते हैं। स्नायु संबंधी विकार की आंशिक संभावना बन रही है। कुछ सरल योग एवं व्यायाम से स्थिति में सुधार किया जा सकता है। साथ ही सुबह की लम्बी सैर करना भी लाभकारी रहेगा।

मई 2030 के लिए फलादेश

माह अवधि के दौरान आपको क्षतिपूर्ति करने के लिए अपने स्वास्थ्य की ज्यादा देखरेख करनी होगी। क्योंकि माह अवधि में आपको ग्रहों एवं सितारों की शुभता का आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो रहा है। माह अवधि के दौरान आपका शरीर भी पौष्टिक आहार का लाभ ज्यादा उठाने में सक्षम नहीं होगा। पौष्टिक भोजन से भी आपके स्वास्थ्य सुख में अधिक लाभ होने की संभावना नहीं बन रही है। माह अवधि में चोट, दुर्घटना और असंभावित घटनाओं के कारण स्वास्थ्य सुख की कमी हो सकती है। इसके अलावा आपकी उत्पादक शक्तियां भी प्रभावित हो सकते हैं। यह प्रतिकूल स्थिति कुछ समय के लिए बनी हुई है। उचित सावधानी बरतें और उपयुक्त कदम उठाने से आप माह अवधि में स्वास्थ्य चिंताओं से मुक्त रह सकते हैं।

जून 2030 के लिए फलादेश

इस माह के ग्रह, सितारों आपके स्वास्थ्य को शुभता प्रदान कर रहे हैं। इस माह के दौरान अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहने के बहुत कम कारण बन रहे हैं। सेवन किये गये आहार से आपका शरीर पुष्ट होकर अधिकतम लाभ प्राप्त करेगा। शारीरिक तंत्र की अनुकूलता आपके शारीरिक सुख को बेहतर करेगी। आप काफी सक्रिय और ऊर्जावान बने रहेंगे। पोषक तत्वों का शरीर में लगना आपकी उत्पादक शक्तियों को बढ़ाएगा, जिसे देख आप को सुखद

आश्चर्य होगा। जीवन के सभी विषयों का आनंद लेने में आप समर्थ रहेंगे। सावधानियां न बरतने पर हिंसक दुर्घटना की संभावना बन सकती हैं। इस माह अवधि में आपको चोट आदि से बचना होगा। दुर्घटनाओं से बचाव करें और अपना ख्याल रखें।

जुलाई 2030 के लिए फलादेश

माह अवधि में सितारों की स्थिति आपके स्वास्थ्य के लिए उत्कृष्ट बनी हुई है। इसलिए यह माह आपके लिए अतिउत्तम बना हुआ है। फिर भी इस माह में आपको स्वास्थ्य को लेकर आंशिक चिंता हो सकती है। पुराने गठिया विकार, पाचन तंत्र से संबंधित शिकायतों और पुराने रोगों में गड़बड़ी न होने से आपको राहत का अनुभव होगा। शारीरिक तंत्र की अनुकूलता होने से आपको सेवन किए गये आहार का पूरा लाभ प्राप्त होगा। संतुलित भोजन करने से शरीर पुष्ट और स्वस्थ होगा। आप इस माह में काफी सक्रिय और ऊर्जावान दिखेंगे। परन्तु फिर भी मन आंशकित रहेगा। इस माह में अपनी स्वस्थता बनाए रखने के लिए आपको बहुत कम प्रयास करने की आवश्यकता रहेगी। अतः यह माह एक सुखद माह रहेगा।

अगस्त 2030 के लिए फलादेश

इस माह के दौरान सितारों की स्थिति आपके स्वास्थ्य विषयों के लिए बहुत अनुकूल सिद्ध हो रही है। इसलिए इस माह में आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंता की कोई बात नहीं होगी। माह अवधि में आपके द्वारा लिए गए आहार का पूरा लाभ आपके शरीर को प्राप्त होगा। उत्तम भोजन का असर आपकी स्वास्थ्य चमक पर पड़ेगा। माह अवधि में आपकी उत्पादक शक्तियां चरम पर होंगी। इस माह आप काफी सक्रिय रहेंगे। इस माह में आपको अत्यधिक मेहनत करने से बचना होगा। यह आपके लिए खतरनाक हो सकता है। इससे बचने के लिए आप कार्यों की एक अनुसूची तैयार करें और उसके अनुसार कार्य निर्धारित करें। कुल मिलाकर इस माह आप जीवन के सुखों का भरपूर आनंद लेंगे।

सितम्बर 2030 के लिए फलादेश

इस माह के दौरान, ग्रह एवं सितारों आपके लिए स्वास्थ्य के मामलों का निराकरण नहीं कर रहे हैं। इसलिए इस माह में आपको अपनी अतिरिक्त देखभाल और ध्यान रखना होगा। यह भी संभावित है कि माह में आपका शरीर संतुलित और पौष्टिक भोजन ग्रहण न कर रहा हों, पोषण की कमी के लक्षण आपके शरीर में दिखाई देंगे। स्वास्थ्य अनियमिताओं का यह प्रथम संकेत हो सकता है। दृढ़ उपायों पर सावधानियों पर ध्यान केंद्रित कर आप अपने स्वास्थ्य सुख को बढ़ा सकते हैं। इससे आपकी स्थिति में बहुत सुधार होगा। इसके अलावा अपनी उत्पादक शक्तियों को बनाए रखना भी आपके स्वास्थ्य सुख को बनाए रखने का एक अच्छा विचार हो सकता है। यह मुश्किल अवधि है इस अवधि में अपना ध्यान रखना हितकारी रहेगा।

अक्टूबर 2030 के लिए फलादेश

इस माह में उत्तम भोजन का सेवन करने पर भी आपका स्वास्थ्य उत्तम नहीं रहेगा। क्योंकि इस माह मंगल सितारों का योग आपके स्वास्थ्य विषयों के लिए बहुत अच्छा संकेत नहीं दे रहा है। छोटी अवधि के लिए अचानक से बीमारियां प्रभावी हो सकती हैं। ऐसे संकेत प्राप्त होने पर तुरंत उपचार की ओर ध्यान देना होगा। माह अवधि में उत्पादक शक्तियों के लिए कुछ खतरा नहीं बन रहा है। उच्च मनोबल बनाए रखने और सावधानियों का प्रयोग करने पर संभावित स्वास्थ्य हानि नहीं होगी। आप उचित सावधानी के लिए व्यायाम आदि कर सकते हैं। इस प्रकार की कुछ सतर्कता का पालन कर आप स्वयं को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। ऐसे में प्रतिकूल परिस्थितियों को भी आप अनुकूल बना सकते हैं।

नवम्बर 2030 के लिए फलादेश

इस माह के दौरान आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। पाचन तंत्र, वायु रोग और पुरानी बीमारियों में गड़बड़ी न होने से आपको काफी राहत का अनुभव होगा। इस माह अवधि में आपको अपने स्वास्थ्य की सामान्य देखभाल रखनी होगी। रोगों के शांत रखने से आपको राहत का अनुभव होगा। अपनी स्वास्थ्य अनुकूलता को बनाए रखने के लिए आपको पोषक तत्वों का सेवन करना होगा। माह अवधि में आपकी उत्पादक जीवन शक्ति बढ़ रही है। माह अवधि में आपका मन भी स्वस्थ रहेगा। गले में सामान्य खराश का ईलाज आपको कराना पड़ सकता है। अन्य रोगों के शांत रहने के योग बन रहे हैं।

दिसम्बर 2030 के लिए फलादेश

इस माह के सितारों आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं बने हुए हैं। माह अवधि में आपको स्वयं में आत्मविश्वास की कमी का अनुभव होगा। इस समय में आपको अतिरिक्त देखभाल और ध्यान की जरूरत रहेगी। आपको सामान्य रूप से अच्छे आहार का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। इससे आप परेशान हो सकते हैं। स्वास्थ्य के पक्ष से यह शुभ संकेत नहीं है। इसके अतिरिक्त छाती में किसी भी प्रकार के संक्रमण का पहला लक्षण दिखाई देने पर ही जल्द से जल्द गंभीरता से इसका ईलाज कराना होगा। इस संदर्भ में किसी भी प्रकार की समय हानि उचित नहीं होगी। समय की उपेक्षा किए बिना ईलाज करना आपके लिए काफी सकारात्मक होगा। साथ ही इस अवधि में आप अधिक परिश्रम से बचें। अपने शरीर पर अनुचित दबाव डालने से बचें। कार्यों की अनुसूची तैयार कर आप अतिरिक्त कार्यभार से बचाव कर सकते हैं।

दशा विश्लेषण

महादशा :- शुक्र
(31/10/2025 - 31/10/2045)

आपकी कुण्डली में शुक्र की महादशा 31/10/2025 को आरम्भ होकर 31/10/2045 को समाप्त होगी। इसकी अवधि 20 वर्ष है।

आपकी कुण्डली में शुक्र सप्तम भाव में स्थित है। शुक्र स्वभावतः एक शुभ ग्रह है जो अच्छे स्वाद, भावनात्मक आनन्द तथा सुखमय जीवन, विशेष रूप से औरत के साथ, का द्योतक है। यह विवाह का कारक भी है। यह दो राशियों तुला तथा वृष का स्वामी है। यह मीन में उच्च का जबकि कन्या में निम्न का होता है। आपकी जन्म कुण्डली में यह सप्तम भाव में स्थित होकर प्रथम भाव को देख रहा है और इस भाव पर कारकत्व का प्रभाव डाल रहा है। भाव जिस में यह स्थित है अर्थात् सप्तम भाव भूमि, आय, जीवन-साथी और व्यवसाय में साथी, मुकदमें तथा विदेश में प्रभाव या वहाँ अर्जित प्रतिष्ठा का द्योतक है।

स्वास्थ्य :

महादशा स्वामी शुक्र सप्तम भाव में स्थित है। सप्तम भाव से यह प्रथम भाव को देख रहा है जो लग्न है तथा शरीर-गठन एवं शरीर का द्योतक है। यह आपकी किसी बड़ी शारीरिक समस्या या दुर्घटना से रक्षा करेगा।

अर्थ संपत्ति :

शुक्र सप्तम भाव में स्थित है और अपने ही भाव को प्रबलित कर रहा है जो साथी या जीवन साथी का भाव है। इस दशा काल में आप साझेदारी का व्यवसाय आरंभ कर सकते हैं जिसमें आप सफल रहेंगे या विदेश जाने की स्थिति में आपको वहाँ अच्छी उपलब्धियाँ तथा लोगों से संपर्क स्थापित करेंगे और आपकी चल तथा अचल संपत्ति में वृद्धि संभव है।

व्यवसाय :

आप साझेदारी का व्यवसाय कर सकते हैं जिसमें सफलता मिलेगी विशेष कर जब यह विचरीत लिंग के साथ हो। आप उन वस्तुओं को बनाने का काम करेंगे जिनकी मांगे औरतों में ज्यादा होती है जैसे रंग-रोगन या कपड़े का व्यवसाय।

पारिवारिक जीवन :

शुक्र विवाह का कारक भी है तथा सप्तम भाव जो विवाह का द्योतक है, में स्थित है और आपको एक कारक दोष देता है जिसके परिणाम स्वरूप आपके वैवाहिक जीवन में कुछ समस्या आ सकती है। आपको एक समर्पणशील या आज्ञाकारी जीवन साथी मिलेगा। किन्तु इसके बावजूद आपका परायी स्त्रियों की ओर झुकाव होगा, जो आपके वैवाहिक जीवन को तहस-नहस कर सकता है। आप बहुत ही भावुक होंगे और स्त्रियों के प्रति झुकाव के कारण स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याएं हो सकती हैं।

**अंतर्दशा :- शुक्र - शुक्र
(31/10/2025 - 01/03/2029)**

शुक्र महादशा की अवधि 20 वर्ष होती है। आपके लिए यह 31/10/2025 को प्रारंभ होकर 31/10/2045 को समाप्त होगी। इस महादशा में शुक्र की अंतर्दशा 3 वर्ष 4 मास की होगी। आपके लिए यह 31/10/2025 को प्रारंभ होकर 01/03/2029 को समाप्त होगी।

शुक्र आपकी जन्मपत्री में सप्तम भाव में स्थित है। सप्तम भाव आत्मीय संबंध जीवनसाथी, व्यापार में साझेदार, मुकदमे, विदेश में प्रभाव और जीवन में खतरों का परिचायक है। शुक्र शुभ ग्रह हैं। सप्तम भाव में स्थित होकर शुक्र आपकी कुंडली के प्रथम भाव पर दृष्टि डाल रहा है और उसके कारकत्व को प्रभावित कर रहा है।

इस अवधि में आप रोमांटिक और वासनापूर्ण होंगे। विपरीत लिंग के व्यक्तियों से संबंध बनेंगे, व्यक्तित्व आकर्षक होगा। लोकप्रियता के कारण विपरीत लिंग के व्यक्तियों के साथ व्यापार में भागीदारी हो सकती है। रति की अति से मर्दानी कमजोरी हो सकती है; अतः सावधान रहें।

शुभत्व में वृद्धि और अरिष्ट से बचाव के लिए निम्न उपाय करें :

- चींटियों को चीनी और आटा खिलाएं।
- कन्याओं को खीर खिलाएं।
- लक्ष्मीजी की उपासना करें।

**अंतर्दशा :- शुक्र - सूर्य
(01/03/2029 - 01/03/2030)**

शुक्र महादशा की अवधि 20 वर्ष की होगी। आपके लिए यह 31/10/2025 को प्रारंभ होकर 31/10/2045 को समाप्त होगी। इस महादशा में सूर्य की अंतर्दशा 1 वर्ष की होगी जो 01/03/2029 को प्रारंभ होकर 01/03/2030 को समाप्त होगी।

सूर्य आपकी जन्मपत्री में नवम भाव में स्थित है। नवम भाव श्रद्धा, भाग्य, धार्मिक और आध्यात्मिक विचार, अंतर्ज्ञान, भविष्यज्ञान, उपासनास्थल, पिता, धर्मगुरु, लंबी यात्राएं, हवाई यात्रा, उच्च शिक्षा और घुटनों का प्रतिनिधि है। सूर्य आत्मा और पिता का कारक है और एक शक्तिशाली ग्रह है। नवम भाव में स्थित होकर सूर्य कुंडली के तृतीय भाव पर दृष्टि डाल रहा है और उसके कारकत्व को प्रभावित कर रहा है।

इस अवधि में आपकी धर्म में रुचि होगी। पिता और गुरु के भक्त बनेंगे। आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यों में मन लगेगा।

पुत्रों से खुशी प्राप्त होगी। उनके और स्वयं के प्रयत्नों से अचल संपत्ति प्राप्त करेंगे।

आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। संपत्ति प्राप्त हो सकती है। आप महत्वाकांक्षी और

उद्यमी होंगे।

अरिष्ट से बचाव के लिए सूर्य मंत्र का नित्य जाप करें और सूर्य के तांत्रिक मंत्र के 28000 जाप करें।

**अंतर्दशा :- शुक्र - चन्द्र
(01/03/2030 - 31/10/2031)**

शुक्र महादशा की अवधि 20 वर्ष है। आपके लिए यह 31/10/2025 को प्रारंभ हुई थी और 31/10/2045 को समाप्त होगी। इस महादशा में चंद्र की अंतर्दशा 1 वर्ष 8 मास की होगी जो आपके लिए 01/03/2030 से प्रारंभ होकर 31/10/2031 को समाप्त होगी।

चंद्रमा आपकी जन्मपत्री में चतुर्थ भाव में स्थित है। चतुर्थ भाव माता, स्वयं का मकान, घरेलू वातावरण, व्यक्तिगत संबंध, वाहन, बाग-बगीचे, पैतृक संपत्ति, शिक्षा, दूध, तालाब और झील आदि का प्रतिनिधि है।

चंद्रमा मष्तिष्क और माता का कारक है।

चतुर्थ भाव में स्थित होकर चंद्रमा कुंडली के दशम भाव पर दृष्टि डाल रहा है और उसके कारकत्व को प्रभावित कर रहा है।

इस अवधि में आपका घरेलू जीवन सुखी रहेगा। माता से मधुर संबंध रहेंगे। नया भवन और वाहन क्रय कर सकते हैं। किसी नये पाठ्यक्रम या भाषा प्रशिक्षण में प्रवेश ले सकते हैं जिससे कार्यक्षेत्र में उन्नति मिलेगी। हर क्षेत्र में उन्नति होगी।

शुभत्व में वृद्धि और अरिष्ट से बचाव के लिए चंद्र के वैदिक मंत्र के 11000 जाप करें। शाम को चंद्रोदय के समय चंद्रमा को कच्चा दूध चंद्र मंत्र का उच्चारण करते हुए अर्पित करें।